

सूचना पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

संस्करण 6.0 | 30/04/2024 को अद्यतन किया गया



राष्ट्रीय  
प्रौद्योगिकी  
संस्थान श्रीनगर

हज़रतबल | श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) | 190006

[www.nitsri.ac.in](http://www.nitsri.ac.in)

## सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम		
1	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005	अंग्रेज़ी रूप हिंदी रूप
2	आर.टी.आय मार्गदर्शन	आर.टी.आय गाइड 2013
3	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	आर.टी.आय एफ.ए.क्यू   एन.आई.टी.एफ.ए.क्यू
4	परिभाषाएं	एन.आई.टी.श्रीनगर: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर. आर.टी.आई अधिनियम: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एन.आई.टी. अधिनियम: एन.आई.टी.एस.ई.आर. अधिनियम, 2007
एन.आई.टी.श्रीनगर में आर.टी.आई		
5	एन.आई.टी.श्रीनगर में जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	<p><b>मुख्य सार्वजनिक जानकारी अधिकारी (सी.पी.आई.ओ)</b> प्रो. अतीकुर रहमान, प्रभारी कुलसचिव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ईमेल : registrar@nitsri.net</p> <p><b>सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ)</b> श्री मोहम्मद इकबाल डार सहायक कुलसचिव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ईमेल: miqbaldar@nitsri.ac.in</p> <p><b>अपीलीय प्राधिकारी</b> प्रो. गुलाम अशरफुल हरमैन डीन, संकाय कल्याण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ईमेल : gharmain@nitsri.ac.in</p>
6	आर.टी.आई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [फ़ा. सं 1/6/2011-आई.आर दिनांक 15.04.2013]	आर.टी.आई. त्रैमासिक वापसी प्रपत्र
7	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगने के लिए देय शुल्क की दरों की जानकारी।	<p>धारा छह की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध एन.आई.टी.श्रीनगर को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या आईपीओ द्वारा दस रुपये का आवेदन शुल्क के साथ होगा।</p> <p>धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दरों पर एन.आई.टी.श्रीनगर को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से शुल्क लिया जाएगा:</p> <p><i>प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर में) बनाए गए या कॉपी किए गए।</i></p> <p><i>नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और एक ही मामले के लिए प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक बाद के घंटों या उसके अंश के लिए पांच रुपये का शुल्क।</i></p> <p>धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दरों पर एन.आई.टी.श्रीनगर को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा शुल्क लिया जाएगा:</p> <p><i>सीडी/डीवीडी में उपलब्ध जानकारी के लिए, यदि उपलब्ध हो, तो पचास रुपये प्रति सीडी/डीवीडी; और इस तरह के प्रकाशन के लिए कीमत पर मुद्रित रूप में जानकारी प्रदान करने के लिए या प्रकाशन से अर्क के लिए फोटोकॉपी के दो रुपये प्रति पृष्ठ।</i></p>

नोट: इस पुस्तिका में संबंधित दस्तावेजों से हाइपरलिंक होते हैं; आप संबंधित जानकारी तक पहुंचने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः प्रकटीकरण		
धारा	विवरण	पृष्ठ संख्या
धारा -4(1)(b)(i)	संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।	1
धारा -4(1)(b)(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	5
धारा -4(1)(b)(iii)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित अपनाई गई प्रक्रिया।	5
धारा -4(1)(b)(iv)	इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड।	5
धारा -4(1)(b)(v)	नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।	6
धारा -4(1)(b)(vi)	दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाते हैं।	7
धारा -4(1)(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति या कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।	21
धारा -4(1)(b)(viii)	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का वक्तव्य जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अपने भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किया गया है, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।	8
धारा -4(1)(b)(ix)	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	44
धारा -4(1)(b)(x)	इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है।	19
धारा -4(1)(b)(xi)	अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर रिपोर्ट का संकेत है।	20
धारा -4(1)(b)(xii)	सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल है;	20
धारा -4(1)(b)(xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिट या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	20
धारा -4(1)(b)(xiv)	जानकारी के संबंध में विवरण, उपलब्ध है या इसके द्वारा आयोजित, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम।	22
धारा -4(1)(b)(xv)	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।	23
धारा -4(1)(b)(xvi)	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	19
स्वतः प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी		
क्र. संख्या.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	खरीद से संबंधित जानकारी	29
2.	सार्वजनिक निजी भागीदारी	21
3.	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश	7
4.	आर.टी.आई एप्लीकेशन	30
5.	सी.ए.जी और पी.ए.सी पारस	21
6.	नागरिक चार्टर	30
7.	विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान	20
8.	प्रधानमंत्री/मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेश दौरे	20

**इस पुस्तिका का संकलन निम्न द्वारा किया गया है:**

- श्री मोहम्मद इकबाल डार, (सहायक कुलसचिव, प्रशासन)  
ईमेल: miqbaldar@nitsri.ac.in
- श्री मोहम्मद हाज़िक, (सहायक कुलसचिव, निदेशक कार्यालय / कानूनी)  
ईमेल: hazik@nitsri.ac.in
- श्री नरेश कुमार, (कनिष्ठ सहायक, प्रशासन), ईमेल: naresh@nitsri.ac.in
- डॉ. सबज़ार अहमद (हिंदी अनुवादक, ओ.एस.) ईमेल: sabzargani@gmail.com

## 1. एन.आई.टी श्रीनगर, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;

### • संस्थान का नाम और पतासंस्थान का नाम और पता

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर  
हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर।  
भारत | पिन- 190006

दूरभाष: 0194-2422032 | फ़ैक्स: 0194-2420475  
www.nitsri.ac.in

- **निदेशक:** प्रो. ए. रविंदर नाथ
- **कुलसचिव:** प्रो. अतीकुर रहमान

### संस्थान का कार्यरत समय

- शिक्षण और प्रशासन: 8:45 पूर्वाह्न to 5.30 मध्याह्न (सोमवार से शुक्रवार)
- पुस्तकालय: 8:45 पूर्वाह्न to 12 मध्याह्न (कार्यरत दिन) | 10 पूर्वाह्न to 5 मध्याह्न (सप्ताहांत और छुट्टियां).
- शोध गतिविधियां और आवश्यक सेवाएं साल भर चौबीसों घंटे खुली होती हैं।

### • परिचय

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के तत्वावधान में एक केंद्र पोषित तकनीकी संस्थान है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर (पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज) की स्थापना जुलाई 1960 में दूसरी (पंचवर्षीय) योजना के दौरान भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा की गई थी। यह देश भर में स्थापित 8 ऐसे संस्थानों के पहले बैच में से एक था। अन्य सात संस्थान इलाहाबाद, भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, नागपुर, सुरथकल और वारंगल में स्थित थे।

संस्थान ने शुरुआत में श्रीनगर के नसीम बाग के ऐतिहासिक चिनार गार्डन में काम किया; उत्तर की ओर कश्मीर विश्वविद्यालय के परिसर के निकट। संस्थान अंततः वर्ष 1966 में अपने वर्तमान परिसर में स्थानांतरित हो गया और तब से यहीं कार्य कर रहा है।

इस संस्थान को वर्ष 2003 में देश भर में 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक के रूप में कार्य करने के लिए ऊंचा किया गया था और इसे भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया था।

### • विजन

उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी जनशक्ति और तकनीकी संसाधनों को विकसित करके एक अग्रणी तकनीकी संस्थान की विशिष्ट पहचान स्थापित करना, जिसका लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश और विशेष रूप से क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है।

### • मिशन

एक मजबूत और परिवर्तनकारी तकनीकी शैक्षिक वातावरण बनाना जिसमें नए विचार, नैतिक सिद्धांत, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उत्कृष्टता का पोषण हो।

उद्योग, समाज, राज्य और राष्ट्र की जरूरतों और समस्याओं की समझ रखने वाले तकनीकी रूप से शिक्षित और व्यापक रूप से प्रतिभाशाली इंजीनियरों, भावी नवप्रवर्तनों और उद्यमी स्नातकों को तैयार करना।  
ऐसे इंजीनियर तैयार करना जिनके पास उच्चतम स्तर का आत्मविश्वास, व्यावसायिकता, शैक्षणिक उत्कृष्टता और इंजीनियरिंग नैतिकता हो।

### • उद्देश्य

- I. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक बुनियादी ढांचा और छात्रों और संकाय दोनों द्वारा अंतर-विषयक अनुसंधान के लिए एक रचनात्मक माहौल प्रदान करना।
- II. छात्रों की बढ़ती शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमताओं को मजबूत करके शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- III. बढ़ती नौकरी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने वाले रचनात्मक और सक्षम इंजीनियरों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम को उन्नत करना और समय-समय पर पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करना।
- IV. छात्रों के बीच ईमानदारी, जवाबदेही, नैतिक अखंडता, विविधता के प्रति सहिष्णुता और जातीय और धार्मिक मतभेदों के प्रति सम्मान के उच्चतम मानकों को जागृत करना ताकि उन्हें अच्छा इंसान बनाया जा सके।
- V. इंजीनियरिंग पेशे की नैतिकता, निर्णय लेने में पूर्ण विश्वास और अपनी सभी गतिविधियों में अच्छा सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले इंजीनियरों को तैयार करना ताकि वे संगठन और समाज की सर्वोत्तम संतुष्टि के साथ अपना कर्तव्य निभा सकें।
- VI. इंजीनियरिंग पेशे की नैतिकता, निर्णय लेने में पूर्ण विश्वास और अपनी सभी गतिविधियों में अच्छा सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले इंजीनियरों को तैयार करना ताकि वे संगठन और समाज की सर्वोत्तम संतुष्टि के साथ अपना कर्तव्य निभा सकें।

### • संस्थान के कर्तव्य

शिक्षण और अनुसंधान।

### • संस्थान की मुख्य गतिविधियां/ कार्य

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। संकाय और परास्नातक और डॉक्टर डिग्री, प्रायोजित अनुसंधान, औद्योगिक परामर्श और सतत शिक्षा के लिए अग्रणी छात्रों द्वारा अनुसंधान के बाहर ले जाने।

### • संस्थान में शैक्षणिक विभाग

संस्थान में आठ अभियांत्रिकी विभाग, चार संबद्ध विभाग और छह केंद्र हैं।

अभियांत्रिकी		संबद्ध	केंद्र
जानपद अभियांत्रिकी विभाग	धातुकी और पदार्थ विज्ञान विभाग	रसायन विभाग	जल संसाधन प्रबंधन केंद्र
यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	भौतिक विज्ञान विभाग	संगणक सेवा केंद्र
रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग	संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी विभाग	गणित विभाग	केंद्रीय अनुसंधान सुविधा केंद्र
विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी विभाग	मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन विभाग।	नवाचार, ऊष्मायन और उद्यमिता विकास केंद्र
			पुस्तकालय एवं सूचना संसाधन केंद्र
			आई.डी.एम केंद्र

- एन.आई.टी श्रीनगर द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक पाठ्यक्रम

क्र. संख्या	कार्यक्रम	विषयों की संख्या
1.	प्रौद्योगिकी में स्नातक	8
2.	प्रौद्योगिकी में परास्नातक	13
3.	विज्ञान में परास्नातक	3
4.	व्यापार प्रशासनिक में परास्नातक	1
5.	प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमशीलता प्रबंधन में परास्नातक	1
6.	पीएच.डी	12

- छात्र नामांकन सांख्यिकी

क्र. संख्या	कार्यक्रम	कुल ताकत
1.	बी. टेक	3287
2.	एम. टेक	334
3.	एम.एससी	62
4.	एम.बी.ए	14
5.	एम. टी.आई.ई.एम	Nil
6.	पीएच.डी	604

- कर्मचारियों के आंकड़े

क्र. संख्या	कोटि	कुल ताकत
1.	शिक्षण/संकाय (स्थायी)	155
2.	शिक्षण (अस्थायी / अतिथि संकाय)	36
3.	गैर-शिक्षण (स्थायी)	171
4.	गैर-शिक्षण (अनुबंध के आधार पर)	36
5.	गैर-शिक्षण (आउटसोर्स कर्मचारी)	298

स्वीकृत संख्या: 198 (शिक्षण) और 218 (गैर-शिक्षण)

- संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- इंजीनियरिंग, संबद्ध विज्ञान, मानविकी और प्रबंधन में यूजी और पीजी स्तरों पर शिक्षण। (वेबसाइट पर उपलब्ध शिक्षण कार्यक्रमों का विवरण)।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान।
- प्रायोजित अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना।
- शिक्षा, उद्योग और सरकार के कर्मियों को सतत शिक्षा प्रदान करना।
- सम्मेलनों, सेमिनारों और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन।



## 1.2. संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

निदेशक संस्थान के प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी हैं। निदेशक संस्थान के उचित प्रशासन, अनुदेश प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक के पास समय-समय पर बोर्ड और एमएचआरडी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय उठाने का अधिकार है। रजिस्ट्रार अभिलेखों, संस्थान के धन और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्तियों का संरक्षक होता है।

संस्थान के अन्य अधिकारी और कर्मचारी निदेशक द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे गए अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ग्रहण करते हैं।

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य एनआईटी अधिनियमों और विधियों से प्राप्त होते हैं।

*एन.आई.टी में अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें।*

## 1.3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित अपनाई गई प्रक्रिया।

- **निर्णय लेने की प्रक्रिया और संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम:** संस्थान के पास है निदेशक, एक कुलसचिव, 6 डीन, 12 विभागाध्यक्ष, 160 से अधिक फैकल्टी सदस्य, 2 उप कुलसचिव और 6 सहायक कुलसचिव जो एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम, एन.आई.टी विधियों और बी.ओ.जी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संस्थान के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी, मंत्रालयी और कार्यालय कर्मचारियों द्वारा समर्थित हैं। ऊपर सूचीबद्ध प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी मुख्य रूप से उस कार्यालय / विभाग से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है जिसका वह प्रभारी है।

*मुख्य निर्णय लेने के बिंदुओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें:*

**अंतिम निर्णय लेने का अधिकार:** संस्थान के निदेशक के संबंध में निर्णय लेते हैं छात्रों के मामले, स्टाफ मामले, संस्थान की सुविधाएं और परिसर में बुनियादी ढांचा। पशु चिकित्सक और निर्णय का अंतिम अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास है। निर्णय हैं सूचनाओं, घोषणाओं द्वारा जनता को सूचित किया जाता है और संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है और अखबारों के विज्ञापन

- **समय सीमा:** कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है; हालांकि, प्रत्येक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है काम में अत्यधिक देरी से बचने के लिए कम से कम संभव समय सीमा के भीतर।
- **पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल:** सभी स्टाफ सदस्यों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता है वह कार्य जो उन्हें उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपा गया है। प्रत्येक कर्मचारी का समग्र प्रदर्शन प्रदर्शन मूल्यांकन की प्रणाली के आधार पर हर साल सदस्य का मूल्यांकन और समीक्षा की जाती है।

*पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों पर अधिक जानकारी के लिए ऑर्गेनोग्राम दिया का संदर्भ लें पेज 4 पर:*

## 1.4. इसके कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड।

**शैक्षणिक कार्यक्रम:** संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक सीनेट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने वाले छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों पर भी नजर रखता है।

*प्रशासनिक गतिविधियाँ:* प्रशासनिक गतिविधियों के लिए मानदंड और मानक संस्थान के अधिनियमों, क़ानूनों और अन्य नियमों के अनुरूप बीओजी द्वारा निर्धारित और निगरानी किए जाते हैं।

इन सेवाओं तक नागरिक चार्टर में दिए गए कार्यों/सेवा वितरण के मानदंडों/ मानकों के आधार पर पहुंच बनाई जा सकती है।

#### • शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

जन शिकायतें: एन.आई.टी श्रीनगर जन शिकायतों के निवारण के लिए डी.ए.आर.पी.जी. द्वारा जारी निर्देशों का पालन करता है। संस्थान में शिकायत प्रकोष्ठ 30 दिनों के अधिकतम टर्न-अराउंड-टाइम में सभी जन शिकायतों को प्राप्त करता है और उनका निवारण करता है।

इसके अलावा, एन.आई.टी श्रीनगर ने उन प्रक्रियाओं/कार्यों की पहचान की है जिन पर निर्णय नियमित रूप से किए जाने हैं। इस प्रकार, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, शिकायतों की घटनाओं को कम करने के लिए ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया या नीतिगत निर्णय को अधिकतम टर्न अराउंड-टाइम सौंपा गया है।

*प्रत्येक कार्य/प्रक्रिया/निर्णय को दिए गए अधिकतम टर्न-अराउंड-टाइम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें:*

*आंतरिक शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया:* संस्थान में एक समर्पित शिकायत समिति भी है; छात्रों, संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की शिकायतें/शिकायतें प्राप्त करने के लिए गठित। अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति स्वतंत्र रूप से शिकायत की सत्यता की पुष्टि करती है और पीड़ित की संतुष्टि के लिए कम से कम समय सीमा में इसका निवारण करने का प्रयास करती है।

*शिकायत समिति की संरचना के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।*

#### 1.5. नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

1. एन.आई.टी.एस.ई.आर. अधिनियम 2007
2. एन.आई.टी.एस.ई.आर (संशोधन) अधिनियम 2012
3. एन.आई.टी.एस.ई.आर (संशोधन) अधिनियम t 2014
4. एन.आई.टी की पहली विधियां (2009)
5. एन.आई.टी (संशोधन) विधियों की पहली विधियां; 2017
6. एन.आई.टी (संशोधन) विधियों की पहली विधियां; 2023
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013.
8. अनुसंधान और परामर्श के लिए नियम
9. प्रायोजित परियोजनाओं के लिए नियम
10. छात्र इंटरशिप कार्यक्रम के लिए नियम
11. बौद्धिक संपदा अधिकार नीति
12. पीएचडी क़ानून
13. पढ़ाई के पाठ्यक्रम (यूजी/पीजी)
14. खरीद और कार्यों के लिए नियम; जी.एफ.आर. 2017
15. भर्ती नियम (शिक्षण एवं शिक्षण)
16. सीनेट और बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के संकल्प।
17. भारत सरकार आरक्षण नियम

18. सी.सी.एस. आचरण नियम
19. सी.सी.एस छुट्टी नियम
20. सी.सी.एस सी.सी.ए. नियम
21. सी.पी.डी.ए दिशानिर्देश
22. भारत सरकार के मौलिक नियम/ अनुपूरक नियम
23. भारत सरकार के दिशा-निर्देश/मानदंड/आदेश/प्रक्रियाएं समय-समय पर जारी की गई हैं।
24. अनुकंपा नियुक्ति योजना - प्वाइंट आधारित मेरिट सिस्टम
25. कर्मचारी हितैषी निधि नियम

- **स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश:** संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों को संस्थान के भीतर किसी भी विभाग, अनुभाग या केंद्रों में तैनात किया जा सकता है।

*स्थानांतरण आदेश के लिए, विवरण के लिए इस लिंक का पालन करें*

### 1.6. दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाते हैं।

उपरोक्त धारा 1.5 के तहत उल्लिखित सूची के अलावा, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज उनके संबंधित कार्यालयों में संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं:

क्र. सं	विषय/प्रकार	दस्तावेज/फाइल/मस्टर/रजिस्टर/वाउचर आदि का प्रकार	रिकॉर्ड के संरक्षक
1.	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मिनट्स	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
2.	संस्थान सीनेट के मिनट	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	डीन शैक्षणिक मामले
3.	एफ.सी के मिनट	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
4.	बी.डब्ल्यू.सी के मिनट	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
5.	डीन और विभागाध्यक्षों की समिति की बैठक के मिनट्स ।	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव/ विभागाध्यक्ष
6.	संस्थान वार्षिक रिपोर्ट	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
7.	ऑडिटेड वार्षिक खाता रिपोर्ट	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
8.	कर्मचारी सेवा पुस्तकें और व्यक्तिगत फाइलें	भौतिक सेवा पुस्तकें और फाइलें	कुलसचिव
9.	लेखा फाइलें और वाउचर	भौतिक फाइलें और वाउचर	कुलसचिव
10.	छात्र शैक्षणिक और व्यक्तिगत रिकॉर्ड	भौतिक फाइलें और फ़ोल्डर्स	डीन शैक्षणिक मामले/ कुलसचिव
11.	विभिन्न प्रशासनिक फाइलें	भौतिक फाइलें और फ़ोल्डर्स	कुलसचिव
12.	सामान्य/विविध	भौतिक फाइलें और फ़ोल्डर्स	कुलसचिव
13.	शिकायतें और शिकायतें मिलीं	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
14.	आर.टी.आई आवेदन/अपील और प्रतिक्रियाएं	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
15.	कानूनी मामला फाइलें	भौतिक फाइलें/इलेक्ट्रॉनिक फाइलें	कुलसचिव
16.	पुस्तकालय: पुस्तकें और पत्रिकाएं	भौतिक पुस्तकें और पत्रिकाएं	उप पुस्तकालयाध्यक्ष

*कृपया ध्यान दें कि सूची प्रकृति में संपूर्ण नहीं है।*

### 1.7. इस सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय।

क्र. संख्या	निकाय का नाम
1.	एन.आई.टी परिषद्
2.	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
3.	सीनेट
4.	वित्त समिति
5.	भवन एवं निर्माण समिति
6.	आंतरिक समिति
7.	एस.सी/एस.टी/पी.डब्ल्यू.डी/ओ.बी.सी प्रकोष्ठ
8.	शिकायत समिति
9.	ए.सी.ओ.एफ.ए.आर

इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों से युक्त उपरोक्त निकायों का संरचना, गठन की तारीखें, कार्यकाल के साथ-साथ शक्तियों और कार्यों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

#### बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

शक्तियां और कार्य: बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 10 सदस्य होते हैं और संस्थान के मामलों के सामान्य अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति और जिम्मेदारी होती है। एन.आई.टी अधिनियम, 2007 और संविधियों के अनुसार, बी.ओ.जी के अध्यक्ष बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बोर्ड के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का कर्तव्य है। रजिस्ट्रार बी.ओ.जी के पदेन सचिव हैं।

एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अलावा बोर्ड को अधिकार है:

- संस्थान में किसी भी पद के नामकरण को समाप्त करने, फिर से नामित करने या बदलने के लिए;
- समय-समय पर आगंतुक के अनुमोदन से विधियों को बनाने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए; बशर्ते कि मौजूदा कानूनों के नए कानून, जोड़ या संशोधन आगंतुक की मंजूरी के बाद ही लागू होंगे; और
- इस शर्त के अधीन संस्थान की वित्त समिति या सीनेट की सिफारिश पर सभी या किसी भी अध्यादेश को संशोधित, संशोधित और रद्द करना कि अधिनियम और (या) विधियों का उल्लंघन नहीं होगा।

#### बोर्ड के आदेशों का प्रमाणीकरण

बोर्ड के सभी आदेशों और निर्णयों को निदेशक के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा। निदेशक की अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार या इस ओर से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति।

#### अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की शक्तियां

एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम में प्रदान की गई शक्तियों के अलावा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

- चयन समिति की सिफारिशों पर, अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिन पदों पर बोर्ड द्वारा नियुक्तियाँ की जा सकती हैं, उनके संबंध में किसी पदधारी का प्रारंभिक वेतन उस पैमाने के न्यूनतम से अधिक स्तर पर तय करने की शक्ति:

- ii. उनके पास प्रशिक्षण के लिए संस्थान के निदेशक को छोड़कर या भारत के बाहर अनुदेश के पाठ्यक्रम के लिए कर्मचारियों के सदस्यों को भेजने की शक्ति होगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं और निदेशक द्वारा विदेश यात्रा को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;
- iii. वह केंद्र सरकार की ओर से संस्थान और निदेशक के बीच सेवा के अनुबंध को निष्पादित करेगा, लेकिन वह इस तरह के अनुबंध के तहत व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; और
- iv. आपात मामलों में अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और पुष्टि और अनुसमर्थन के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बोर्ड को सूचित कर सकता है।

*अवधि/कार्यकाल:* नामांकन की तारीख से 3 साल (पदेन सदस्यों के मामले को छोड़कर)

*बैठकों के मिनट:* कृपया लिंक का पालन करें

*संरचना:* कृपया अगले पृष्ठ पर विवरण देखें।

अध्यक्ष	नामांकन * (ए)	प्रो. ए. रविंदर नाथ निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर हजरतबल, कश्मीर-190006
पद के अधिकार से	(बी)	प्रो. ए. रविंदर नाथ निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर हजरतबल, कश्मीर-190006
तकनीकी शिक्षा और वित्त से संबंधित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों।	(सी)	श्रीमती सौम्या गुप्ता, आई.ए.एस संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली  श्री संजोग कपूर संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारतीय सरकार, नई दिल्ली
जिस राज्य में संस्थान स्थित है, उस राज्य की सरकार द्वारा दो व्यक्तियों को उन व्यक्तियों में से नामांकित किया जाएगा, जो उस सरकार की राय में प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति हों।	(डी)	श्री आलोक कुमार, आई.आर.एस सरकार के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, श्रीनगर/जम्मू  दूसरे सदस्य की प्रतीक्षा की जा रही है
परिषद द्वारा नामांकित किए जाने वाले दो व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जिनके पास शिक्षा, अभियांत्रिकी या विज्ञान के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा।	(इ)	प्रतीक्षित

संस्थान के एक प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर या एक व्याख्याता को सीनेट द्वारा नामित किया जाएगा	(एफ)	<p>प्रो. गुलाम अशरफुल हरमैन, प्रोफेसर (एचएजी)/डीन, संकाय कल्याण, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर</p> <p>डॉ. हमीदा-तुन-निसा चिश्ती, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रसायनिकी विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर</p>
आईआईटी का निदेशक जिसके क्षेत्र में संस्थान स्थित है या उसका नामांकित व्यक्ति, प्रोफेसर के पद से नीचे का नहीं	खंड (जी)	<p>प्रो. मनोज सिंह गौर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू</p>
सदस्य-सचिव	धारा 18 खण्ड (2)	<p>प्रो. अतीकुर रहमान, प्रभारी कुलसचिव, एन.आई.टी श्रीनगर।</p>

## भवन एवं निर्माण समिति

शक्तियां और कार्य: बोर्ड के निर्देशों के तहत भवन एवं निर्माण समिति संस्थान में सभी प्रमुख/ लघु निर्माण कार्यों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। भवन एवं निर्माण समिति,

- i. बोर्ड के निर्देशों के तहत बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के बाद सभी प्रमुख कार्यों का निर्माण जारी रखेगा;
- ii. संस्थान के अनुमोदित बजटीय प्रावधान के भीतर छोटे-मोटे कार्यों और मरम्मत और रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति देने की शक्ति है और बोर्ड क्रांम या व्यय के संदर्भ में छोटे कार्य और मामूली मरम्मत और रखरखाव को परिभाषित करेगा;
- iii. इमारतों और अन्य पूंजीगत कार्यों, छोटे कार्यों, मरम्मत, रखरखाव और इस तरह की लागत का अनुमान तैयार करने का कारण। भवन एवं निर्माण समिति छोटे कार्यों, मामूली मरम्मत और रखरखाव के लिए लागत अनुमानों को मंजूरी देगा।
- iv. पदार्थ के डिजाइन, अनुमानों और विनिर्देशों की तकनीकी जांच करने के लिए जिम्मेदार रहें जैसा कि आवश्यक माना जा सकता है:
- v. उपयुक्त ठेकेदारों की सूची और निविदाओं की स्वीकृति के लिए जिम्मेदार होना और संस्थान के डीन (पीएंडडी) द्वारा आवश्यक होने पर विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने का अधिकार होगा।
- vi. निविदा द्वारा कवर नहीं दरो का निपटारा करने और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों का निपटारा करने की शक्ति है:

यदि भवन एवं कार्य समिति के अध्यक्ष की राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा और अपनी अगली बैठक में भवन एवं कार्य समिति और बोर्ड को इसकी रिपोर्ट देगा।

भवन एवं कार्य समिति भी इस तरह के कार्य करेगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपी जा सकती हैं।

अवधि/कार्यकाल: जैसा कि एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम और एन.आई.टी विधियों में निर्दिष्ट है।

बैठक के मिनट्स: कृपया लिंक का पालन करे |

संयोजन: कृपया अगले पृष्ठ पर विवरण देखें।

<b>अध्यक्ष</b>		<b>प्रो. ए. रविंदर नाथ निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर हजरतबल, कश्मीर-190006</b>
सदस्य: एम.एच.आर.डी. और आई.एफ.डी द्वारा मनोनीत नई दिल्ली	1	श्री अनिल कुमार निदेशक एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110 001
	2	सुश्री वीणा डूंगा उप सचिव (एन.आई.टी) शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारतीय सरकार, नई दिल्ली। 110001
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा नामित किया गया एक व्यक्ति	1	श्री हरिस अहमद हांडू, उपाध्यक्ष एसडीए, टाउन प्लानर कश्मीर
डीन, योजना एवं विकास	1	डॉ. यशवंत मेहता, डीन, योजना एवं विकास, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर।
सी.पी.डब्ल्यू.डी/राज्य पी.डब्ल्यू.डी का नॉमिनी	1	श्री. मोहनलाल, अधीक्षण अभियंता ( जानपद ), सीपीडब्ल्यूडी, श्रीनगर।
	2	अभियंता फारूक अहमद कार्यकारी अभियंता, जम्मू-कश्मीर सरकार, पी.डी.डी श्रीनगर।
	3	अभियंता हेमवीर सिंह, विशेष आमंत्रित सदस्य कार्यकारी अभियंता (सीपीडब्ल्यूडी), श्रीनगर परियोजना प्रभाग, सीपीडब्ल्यूडी, एनआईटी श्रीनगर।
सचिव	1	प्रो. अतीकुर रहमान, प्रभारी कुलसचिव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर।

## वित्त समिति

शक्तियाँ और कार्य: वित्त समिति के पास शक्तियाँ हैं

1. निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की जांच और संवीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिशें करना; और
2. संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय प्रस्ताव या मुद्दों पर बोर्ड या निदेशक की पहल पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अपने विचार देना और सिफारिशें करना।

अवधि/कार्यकाल: जैसा कि एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम और एन.आई.टी विधियों में निर्दिष्ट है।

बैठकों के मिनट: कृपया लिंक का पालन करें।

संयोजन

अध्यक्ष	1	प्रो. ए. रविंदर नाथ निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर हजरतबल, कश्मीर-190006
सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति	1	श्रीमती सौम्या गुप्ता, आई.ए.एस संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
	2	श्री अनिल कुमार निदेशक वित्त शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारतीय सरकार, नई दिल्ली।
बी.ओ.जी द्वारा अपने सदस्यों के बीच से दो व्यक्ति मनोनीत	1	डॉ. मनोज सिंह गौर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू।
	2	प्रो. गुलाम अशरफुल हरमैन, प्रोफेसर (एच.ए.जी)/ डीन , संकाय कल्याण, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर
निदेशक (पदेन सदस्य)	1	प्रो. ए. रविंदर नाथ निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)।
सचिव	1	प्रो. अतीकुर रहमान, प्रभारी कुलसचिव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)।

## सीनेट

शक्तियां और कार्य: सीनेट का संस्थान में निर्देश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए नियंत्रण है और जिम्मेदार है

एन.आई.टी.एस.ई.आर. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सीनेट के पास शक्तियां हैं :

- i. विभिन्न विभागों और केंद्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यविवरण तैयार करना और संशोधित करना;
- ii. परीक्षाओं के संचालन की; परीक्षाओं से संबंधित परीक्षकों, मॉडरेटर, टैबुलेटर और अन्य मामलों की नियुक्ति की, व्यवस्था करें;
- iii. परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक भेद या खिताब प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना;
- iv. विभागों या केंद्रों के कामकाज से जुड़े शैक्षणिक मामलों पर सिफारिशें करने के लिए संस्थान के विभागों या केंद्रों दोनों के लिए सलाहकार समितियों या विशेषज्ञ समितियों या दोनों की नियुक्ति;
- v. सीनेट के सदस्यों के बीच से समितियों की नियुक्ति करें । संस्थान के अन्य शिक्षकों और बाहर से विशेषज्ञों को ऐसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण शैक्षणिक मामलों पर सलाह देने के लिए सीनेट द्वारा ऐसी किसी भी समिति को भेजा जा सकता है;
- vi. विभिन्न विभागों या केंद्रों और विशेषज्ञ और अन्य समितियों से जुड़ी सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर विचार करें और प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड को सिफारिशें करने सहित ऐसी कार्रवाई करें ;
- vii. विभागों या केंद्रों की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करें और उचित कार्रवाई करें (बोर्ड को सिफारिशें करना शामिल है); संस्थान के पुस्तकालय के कामकाज की निगरानी;
- viii. संस्थान के भीतर अनुसंधान और शैक्षणिक विकास या गतिविधि को बढ़ावा देना और इस तरह के अनुसंधान या शैक्षणिक विकास या उसमें लगे व्यक्तियों से गतिविधि पर रिपोर्ट प्राप्त करना;
- ix. कक्षा कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और आवासीय छात्रावासों के निरीक्षण के लिए प्रदान करते हैं;
- x. संस्थान के छात्रों की सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की योजना;
- xi. पुरस्कार वजीफे, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार और पुरस्कार यदि पुरस्कारों से जुड़े हो सकते हैं, तो ऐसी शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार बनाता है;
- xii. विभागों या कार्यक्रमों या केंद्रों के निर्माण या पुनर्गठन और मौजूदा विभागों या केंद्रों को समाप्त करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करें;
- xiii. बोर्ड को राज्य या देश या विदेश के विभिन्न भागों में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के लिए सिफारिशें करना और विदेशी एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के मामलों में मंत्रालय के अनुमोदन से समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं;
- xiv. सीनेट की बैठकों में नीति अनुशासनात्मक मामलों को शामिल नहीं सामान्य प्रकृति की चर्चा के दौरान दो छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें ।

## सीनेट के अध्यक्ष आपातकाल में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए

यदि सीनेट के अध्यक्ष की राय में कोई आपातकाल उत्पन्न हुआ है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे और अपनी अगली बैठक में सीनेट को अनुमोदन के लिए इसकी रिपोर्ट करेगा।

अवधि/कार्यकाल: जैसा कि एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम और एन.आई.टी विधियों में निर्दिष्ट है।

संयोजन

अध्यक्ष	1	प्रो. ए. रविंदर नाथ निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर हजरतबल, कश्मीर-190006
तीन व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी, संस्थान के कर्मचारी नहीं होने के नाते निदेशक के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, ख्याति के शिक्षाविदों के बीच से, विज्ञान, अभियांत्रिकी और मानविकी के क्षेत्र से एक-एक	1	प्रो. मीनाक्षी जैन, आर्किटेक्चर, विभाग, एन.आई.टी हमीरपुर
	2	प्रो. अनीसा शफ़ी समाजशास्त्र विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय
	3	प्रो. नसीर इकबाल, कुलसचिव, आई.यू.एस.टी अवंतीपोरा
एक व्यक्ति को उद्योग से मनोनीत किया जाएगा	1	श्री जावीद अहमद भट्ट, अध्यक्ष, कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
संस्थान के पूर्व छात्र	1	अभियंता मुफ़्ती मुशारिब गुल उप. महाप्रबंधक, बीएसएनएल श्रीनगर
संस्थान में निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त प्रोफेसर।	1	प्रो. एजाज हुसैन मीर, अध्यक्ष, ई.सी.ई विभाग
	2	प्रो. मोहम्मद फारूक वानी, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
	3	प्रो. एम. डी. मुफ़्ती, विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग
	4	प्रो. जी. ए. हरमैन, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
	5	प्रो. रूही नाज़ मीर, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग

6	प्रो. नजीब-उद-दीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग
7	प्रो. ऐजाज़ अहमद, विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग
8	प्रो. जे. ए. भट्ट, प्रमुख, जानपद अभियांत्रिकी विभाग
9	प्रो. अब्दुल कयूम डार, जानपद अभियांत्रिकी विभाग
10	प्रो. शगूपता रसूल शाह, जानपद अभियांत्रिकी विभाग
11	प्रो. मंजूर अहमद अहंगर, जानपद अभियांत्रिकी विभाग
12	प्रो. बशीर अहमद. मीर, जानपद अभियांत्रिकी विभाग
13	प्रो. शमीम अहमद लोन, विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग
14	प्रो. शेख नजीर अहमद, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
15	प्रो. मोहम्मद नूर सलाम खान, प्रमुख, केमिकल अभियांत्रिकी विभाग
16	प्रो. अदनान कयूम, प्रमुख, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
17	प्रो. बाबर अहमद, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
18	प्रो. एम एम वानी, यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग
19	प्रो. मंजूर अहमद तांत्रे, जानपद अभियांत्रिकी विभाग
20	प्रो. तबस्सुम आरा, रसायनिकी विभाग
21	प्रो. मोहम्मद इकराम भौतिकी विभाग
22	प्रो. सीमिन रुबाब, भौतिकी विभाग
23	प्रो. प्रिंस अहमद गनई, भौतिकी विभाग
24	प्रो. अब्दुल लिमान, गणित विभाग
25	प्रो. नियाज़ अहमद, गणित विभाग
26	प्रो. अब्दुल हामिद भट्ट, विद्युत अभियन्तण विभाग

	27	प्रो. कौसर माजिद, रसायनिकी विभाग
	28	प्रो. तनवीर जलाल अध्यक्ष, गणित विभाग
	29	प्रो. एम.वाई. शाह जानपद अभियांत्रिकी विभाग
	30	प्रो. जावेद अहमद बंदे रसायनिकी विभाग
	31	प्रो. एम.ए. शाह अध्यक्ष, भौतिकी विभाग
	32	प्रो. मोहम्मद आबिद बज़ाज़ विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग
	33	प्रो. शकील अहमद शाह रसायनिकी विभाग
	34	प्रो. हमीदा तून निसा चिश्ती अध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग
	35	प्रो. अतीकुर रहमान प्रमुख, धातुकर्म एवं सामग्री अभियांत्रिकी विभाग
	36	डॉ. गौसिया क़ाज़ी, प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी विभाग
	37	प्रो. शकील अहमद शाह रसायनिकी विभाग
स्टाफ के ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं	1	प्रो. मोहम्मद शफ़ी मीर डीन शैक्षणिक मामले
	2	प्रो. नजीब-उद-दीन प्रमुख, नवाचार, इनक्यूबेशन उद्यमिता विकास केंद्र
	3	डॉ. शेख शाहिद सलीम अध्यक्ष, सीपीयू/ प्रमुख, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट
	4	डॉ. शेख जावेद इकबाल, प्रमुख, विद्युत अभियन्तण विभाग
	5	डॉ. गौसिया क़ाज़ी अध्यक्ष, एलआईआरसी
	6	डॉ फरीदा खुर्शीद अध्यक्ष, कंप्यूटर सेवा केंद्र
	7	डॉ. मोहम्मद अहसान चिश्ती अध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग
	8	डॉ. मुहम्मद मुरसलीन एसोसिएट डीन परीक्षा
	9	डॉ. मुस्ताक अहमद राथर एसोसिएट डीन फॉरेन एंड स्टूडेंट एक्सचेंज

	10	डॉ. फैयाज अहमद सोफी एसोसिएट डीन जानपद एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर
	11	डॉ. जानिबुल-बशीर प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
	12	डॉ. रंजीत कुमार राउत एसोसिएट डीन शैक्षणिक मामले
	13	डॉ. मनोज कुमार समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
	14	डॉ. हरवीर सिंह पाली समन्वयक एन.बी.ए
	15	सुश्री शामिया खान (छात्र प्रतिनिधि) बी.टेक बैच 7वाँ सेमेस्टर
	16	श्री लुबैद निसार (छात्र प्रतिनिधि) एम.टेक बैच तृतीय सेमेस्टर
सचिव	1	प्रो. अतीकुर रहमान, प्रभारी कुलसचिव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर।

### 1.8. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।

संस्थान निर्देशिका के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें

### 1.9. इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है ।

**मुआवजे की प्रणाली:** एन.आई.टी श्रीनगर शिक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या एफ.नं.15-4/2017-टी.सी दिनांक 27 अक्टूबर 2017 के संदर्भ में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सी.पी.सी) द्वारा अनुशंसित मुआवजे की प्रणाली का पालन करता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को संस्थान के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के तहत प्रदान किए गए डी.ए, एच.आर.ए, टी.ए, एल.टी.सी, अर्जित अवकाश, बाल देखभाल अवकाश आदि का लाभ मिलता है।

वेतन संरचना विवरण के लिए, कृपया इस लिंक का पालन करें।

### 1.10. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

लोक सूचना अधिकारी (CPIO)	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA)
नाम: प्रो. अतीकुर रहमान, पदनाम: कुलसचिव, एन.आई.टी श्रीनगर ईमेल: registrar@nitsri.net फ़ोन: 0194-2421347	नाम : प्रो. गुलाम अशरफुल हरमैन पद : डीन, संकाय कल्याण ईमेल: gharmain@nitsri.ac.in फोन: 9419018804
लोक सूचना अधिकारी (PIO)	
नाम: श्री मोहम्मद इकबाल डार पदनाम: सहायक कुलसचिव ईमेल: miqbaldar@nitsri.ac.in फोन: 9596032446	

### 1.11. कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है ।

कर्मचारियों को संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है:		
i.	लघु दंड या बड़ी शास्ति कार्यवाही के लिए लंबित	0
ii.	मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया	4

### 1.12. आर.टी.आई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम।

i.	शैक्षिक कार्यक्रम	एन.आई.टी श्रीनगर ने कार्यशाला आयोजित की जिसमें इस संस्थान के नए शामिल किए गए गैर-संकाय कर्मचारियों ने भाग लिया। संस्थान अपने हितधारकों को केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों में उपस्थित/भाग लेने के लिए भी सूचित और प्रोत्साहित करता है।
ii.	इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास	इन कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आर.टी.आई अधिनियम के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त परिपत्र और ई.मेल संस्थान के कर्मचारियों के बीच प्रसारित किए जाते हैं।
iii.	सी.पी.आई.ओ/ए.पी.आई.ओ का प्रशिक्षण	-
iv.	संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना	आर.टी.आई दिशानिर्देश नियमित आधार पर अद्यतन किए जाते हैं और अंतिम बार इसे 15-04-2023 को अद्यतन किया गया था <i>कृपया आर.टी.आई दिशानिर्देशों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें</i>

2. □□□ □□ □□□□□□□□

**2.1. इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है।**

अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर

(रुपये; करोड़ में)

एन.आई.टी	ओ.एच-31	ओ.एच-36	ओ.एच-35	कुल (ग्रैंड)
एन.आई.टी श्रीनगर	70.89	67.12	14.66	152.67

प्रत्येक एजेंसी और योजना और कार्यक्रमों के लिए बजट पर अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एन.आई.टी श्रीनगर वार्षिक खाता रिपोर्ट के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

**2.2. वरिष्ठ अधिकारियों के विदेश और घरेलू दौरे:**

(2023-2024 की अवधि)

वरिष्ठ अधिकारी	देखे गए स्थान	यात्रा पर व्यय
निदेशक	मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद	₹5.25 लाख
कुलसचिव	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रोफेसर	प्रोफेसर यूएई, हैदराबाद, रूड़की, मलेशिया, इटली	₹15 लाख

**खरीद से संबंधित जानकारी:**

संस्थान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जीएफआर 2017 दिशानिर्देशों के अनुसार सभी खरीद संबंधी गतिविधियां भी करता है। सभी सूचनाओं/निविदा पृष्ठतालों का प्रकाशन; उस पर शुद्धिपत्र विधिवत रूप से संस्थान की वेबसाइट के साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर बनाए जाते हैं।

निविदाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।

प्रदान किए गए कार्य अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।

**2.3. आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण**

एन.आई.टी श्रीनगर कोई सब्सिडी कार्यक्रम संचालित नहीं करता है।

**2.4. विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान**

-

**2.5. इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिट या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण ।**

एन.आई.टी श्रीनगर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।

**2.6. सी.ए.जी और पी.ए.सी पारस**

विवरण के लिए इस लिंक का पालन करें।

### 3. प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफेस

3.1. एफ किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति या कार्यान्वयन के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है;

संस्थान के कामकाज में जनता की भागीदारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वित्त और भवन एवं निर्माण एवं निर्माण समिति के माध्यम से होती है जिसमें उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। संस्थान समुदाय के सामान्य हित को प्रभावित करने वाले मामलों में नागरिकों के मंचों के साथ बातचीत का स्वागत करता है

- **प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं; कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें:**

नियम और विनियम	एन.आई.टी.एस.ई.आर अधिनियम और कानून
डाउनलोड (प्रपत्र एवं अनुप्रयोग)	प्रमुख उपकरण एन.आई.टी. श्रीनगर में उपलब्ध हैं
वार्षिक रिपोर्ट्स	अंकित वार्षिक लेखा
डिजिटल पुस्तकालय	समझौता ज्ञापन
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक का विवरण	भवन एवं निर्माण समिति की बैठक का कार्यवृत्त
वित्त समिति की बैठक का विवरण	दूरभाष निदेशिका
निविदायें	रैगिंग विरोधी नीति
शैक्षणिक सूचनाएं	प्लेसमेंट अधिसूचनाएँ

- **नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था:**
- सभी डीन, संबंधित विभाग प्रमुख, सीपीआईओ और रजिस्ट्रार नीति निर्माण/कार्यान्वयन के संबंध में जनता द्वारा आगंतुकों/प्रतिवेदनों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

#### आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय

सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अपराह्न 3.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)

#### सूचना और सुविधा काउंटर (IFC) के संपर्क विवरण

श्री मोहम्मद इकबाल डार,  
ए.आर, (प्रशासन)  
ईमेल: miqbaldar@nitsri.ac.in  
फोन: 9596032446

सुश्री अस्मत अली,  
(उप पुस्तकालयाध्यक्ष)  
ईमेल: deputylibrarian@nitsri.net  
फोन: 9797847219

#### सार्वजनिक निजी भागीदारी।

-

3.2 नीतियों/निर्णयों का विवरण, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है।

संस्थान छात्रों के मामलों, स्टाफ मामलों, संस्थान की सुविधाओं और परिसर में बुनियादी ढांचे के संबंध में निर्णय लेता है। पशु चिकित्सक और निर्णय का अंतिम अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास है।

*सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया:* संस्थान अपने वैधानिक निकायों के पैनल में संबंधित क्षेत्रों से उद्योग और विशेष आमंत्रितों के सदस्यों को शामिल करके अपने निर्णय लेने और नीति निर्माण में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

*जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा:* निर्णयों को नोटिस, घोषणाओं द्वारा जनता को सूचित किया जाता है और संस्थान की वेबसाइट और समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर प्रकाशित किया जाता है।

### 3.3. व्यापक रूप से सूचना का प्रसार और जनता तक आसान पहुंच

संस्थान की गतिविधियों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है [www.nitsri.ac.in](http://www.nitsri.ac.in)

**3.4. उसके पास उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में घटाया गया है।** वेबसाइट और इस हैंडबुक पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अलावा, शेष संबंधित फाइलों और दस्तावेजों में संग्रहीत है। जिसकी एक सूची ऊपर अनुभाग 1.5 और 1.6 में दी गई है।

**3.5. सामग्री निःशुल्क उपलब्ध है** वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट, संस्थान पत्रिकाएँ, अधिनियम और कानून और अन्य नियम और विनियमों के साथ सूचना पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध है।

**उचित कीमत पर सामग्री उपलब्ध:** ऐसी सभी जानकारी प्रदान करने के लिए शुल्क लिया जा सकता है जिसके लिए प्रतिकृति की आवश्यकता होती है; निम्नलिखित दरों पर:

- बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर में) के लिए दो रुपये।
- नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत;
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और एक ही मामले के लिए प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक बाद के घंटों या उसके अंश के लिए पांच रुपये का शुल्क।
- सीडी/डीवीडी में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए, यदि उपलब्ध हो, तो प्रति सीडी/डीवीडी पचास रुपये; और
- इस तरह के प्रकाशन के लिए कीमत पर मुद्रित रूप में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के दो रुपये प्रति पृष्ठ।

## 4. ई-गवर्नेंस

**4.1. वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है:** यह आर.टी.आई मैनुअल/हैंडबुक अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

**4.2. दिनांक जब यह पुस्तिका अंतिम बार अद्यतन की गई थी:** 30/04/2024

**4.3. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण:** कृपया ऊपर के खंड 1.5, 1.6 और 1.7 देखें।

**4.4. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।**

सुबह 8:45 बजे से 12 बजे तक (कार्य दिवस) | सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (सप्ताहांत और छुट्टियां)  
संस्थान पुस्तकालय, हालांकि, अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का होने के नाते सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

#### संपर्क व्यक्ति और विवरण

पुस्तकालय	चिकित्सा इकाई
<b>नाम:</b> सुश्री अस्मत् अली <b>पद :</b> उप पुस्तकालयाध्यक्ष <b>ईमेल:</b> deputylibrarian@nitsri.net <b>फ़ोन:</b> 9797847219	<b>नाम:</b> डॉ. गौहर नबी तांत्रे <b>पदनाम:</b> चिकित्सा अधिकारी <b>ईमेल:</b> doctor@nitsri.ac.in <b>फ़ोन:</b> 6005621154

#### 4.5. योजनाएं/ परियोजनाएं/ कार्यक्रम

S. No	परियोजना का नाम	प्रारंभ की तिथि	प्रायोजक एजेंसी	स्थिति
1	डल झील के लिए तेरती हुई साइकिल	23/07/2021	एम.एस.एम.ई मंत्रालय	पूरा हुआ
2	जनजातीय विशेषताओं को बढ़ाकर जम्मू-कश्मीर में उगाए जाने वाले जैव तेलों को स्नेहक में परिवर्तित करना	01/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
3	ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए नैनो स्नेहक का विकास और ट्राइबोलॉजिकल परीक्षण	1/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
4	कश्मीर के कालीन औद्योगिक श्रमिकों में मस्कुलोस्केलेटल विकारों के एर्गोनोमिक डिज़ाइन हस्तक्षेप की पहचान	01/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
5	हाइड्रोफोबिक कार्बनिक यौगिकों डीएसटी (डब्ल्यूओएस-ए) युक्त दूषित साइटों का निवारण	16/11/2020	डी.एस.टी. डब्ल्यू.ओ.एस.-ए	पूरा हुआ
6	औषधि विकास के लिए नवीन और जैविक रूप से सक्रिय स्पाइरोकेटल-प्राकृतिक उत्पादों और उनके मचानों का संश्लेषण	13/01/2021	एस.ई.आर.बी	पूरा हुआ
7	ई.पी.एस.ओ.एन: ऊर्जा, शक्ति और प्रदर्शन दक्षता सुरक्षित ऑप्टिकल ऑन-चिप नेटवर्क	28/01/2021	एस.ई.आर.बी. एस.आर.जी	पूरा हुआ
8	आई.ओ.टी. डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग दृष्टिकोण का उपयोग करके फसल रोग की भविष्यवाणी	11/11/2021	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	पूरा हुआ
9	अर्ध-फ्रेक्टल बनावट के विभिन्न प्रवाहों की नकल करना-टीसीएस की स्पॉटेनिस पार्थोर्निंग	05/03/2019	एस.ई.आर.बी	पूरा हुआ
10	शक्तिशाली रोगाणुरोधी एजेंटों के रूप में प्राकृतिक उत्पाद आधारित पॉलिमर कंपोजिट का संश्लेषण	01/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
11	भारी धातु आयनों के लिए नैनोकम्पोजिट सेंसर का संश्लेषण, लक्षण वर्णन और विकास	01/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
12	ट्रांसफार्मर में उन्नत ढांकता हुआ सामग्री का प्रदर्शन मूल्यांकन	21/02/2022	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) भारत	पूरा हुआ
13	सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक थर्मल (पीवी-टी) पोर्ट तकनीक का कार्यान्वयन और परीक्षण	17/03/2022	डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट (जी.आई.जेड) जीएमबीएच जर्मनी	पूरा हुआ
14	स्मार्ट शहरों के लिए ब्लॉकचेन आधारित स्मार्ट बिजली निगरानी और मापन का विकास	29/10/2021	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	पूरा हुआ
15	आवासीय भवन विद्युतीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित वितरित उत्पादन संसाधनों से स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय बिजली की ओर संक्रमण।	01/11/2021	डी.एस.टी.-जे.के	पूरा हुआ

16	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पोस्ट कोविड 19 लक्षणों का जोखिम विश्लेषण	01/11/2021	जे.के.डी.एस.टी	पूरा हुआ
17	बहु-बायोमेट्रिक लक्षणों के संलयन का उपयोग करके समान जुड़वां बच्चों की पहचान	01/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
18	कम लागत वाले आईओएमटी उपकरणों के लिए कम मेमोरी वाले असतत वेवलेट ट्रांसफॉर्म का डिजाइन और विकास	18/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
19	हस्ताक्षरित ग्राफ का स्पेक्ट्रा और ऊर्जा	31/12/2020	डी.एस.टी. एस.ई.आर.बी	पूरा हुआ
20	ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन पर जन धन योजना के प्रभाव का आकलन: जम्मू और कश्मीर का एक केस अध्ययन	29/08/2023	आई.सी.एस.एस.आर	पूरा हुआ
21	स्मार्ट कॉन्टैक्ट द्वारा केसर की गुणवत्ता की जालसाजी की रोकथाम की दिशा में: ब्लॉकचेन के माध्यम से आगे बढ़ने का एक रास्ता।	01/11/2021	जे.के.एस.टी.आई.सी	पूरा हुआ
22	'नदी तट कटाव पर तलछट भार के प्रभाव का आकलन और झेलम नदी बेसिन में निलंबित तलछट भार का पूर्वानुमानित विश्लेषण,'	12/01/2024	एस.ई.आर.बी.-डी.एस.टी	चालू
23	'स्थानिक विविधता और बीम-निर्माण के साथ 5जी एमआईएमओ/ऐरे एंटीना का डिजाइन और कार्यान्वयन,'	22/01/2024	एस.ई.आर.बी.डी.एस.टी., भारत सरकार, 'विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सशक्तिकरण और समानता के अवसर (ई.एम.ई.क्यू)' के तहत	चालू
24	जम्मू एवं कश्मीर में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए परिवर्तनीय आवृत्ति ट्रांसफार्मर (वीएफटी) का उपयोग करके संयुक्त सौर फोटो-वोल्टाइक प्रणाली और पवन ऊर्जा प्रणाली का डिजाइन विश्लेषण।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
25	अनिश्चित हवा और सौर उत्पादन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी भंडारण एकीकृत माइक्रोग्रिड के स्टोकेस्टिक विश्लेषण के लिए अनिश्चितता मात्रा का निर्धारण और एलोरिदम का विकास।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
26	कश्मीर घाटी के निवासियों के लिए कुशल विद्युत और थर्मल अनुप्रयोगों के लिए सौर पीवी-थर्मल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन मूल्यांकन।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
27	कम टॉर्क और करंट तरंगों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन ड्राइव अनुप्रयोग के लिए एक नवीन सेंसर रहित नियंत्रण योजना का डिजाइन और कार्यान्वयन।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
28	आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण अनुप्रयोगों के लिए बायोकम्पैटिबल Z.E.41 मैग्नीशियम आधारित कंपोजिट का विकास।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
29	जम्मू-कश्मीर के फलों और सब्जियों के कचरे से जैव ईंधन का उत्पादन	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
30	सिंथेटिक जेट एक्चुएटर्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग अनुप्रयोगों के लिए हीट ट्रांसफर एन्हांसमेंट की जांच	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
31	3डी प्रिंटिंग हाइड्रोजल कैप्सूल मेम्ब्रेन का उपयोग करके जल शोधन।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
32	उच्च एन्ट्रॉपी मिश्र धातुओं की संरचना-प्रसंस्करण-माइक्रोस्ट्रक्चर-यांत्रिक गुणों के बीच सह-संबंध पर मौलिक जांच: उच्च शक्ति संरचनात्मक सामग्री विकसित करने के लिए एक उपन्यास मिश्र धातु डिजाइन रणनीति।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
33	घर्षण हलचल प्रसंस्करण का उपयोग करके उच्च शक्ति कम घनत्व एमजी-ए1-ली मिश्र धातु का विकास।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
34	कम लागत वाले ऊर्जा भंडारण उपकरण के रूप में Zn-आयन हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर पर एक अध्ययन।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
35	जिक-आधारित प्रत्यारोपण सामग्री की बायोडिग्रेडेबिलिटी पर लेजर सतह बनावट का प्रभाव।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
36	डिजाइन और थर्मो- कार्यात्मक रूप से वर्गीकृत अल्ट्रा-उच्च तापमान सिरैमिक कंपोजिट का संरचनात्मक विश्लेषण	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू

37	"शहर-व्यापी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) संरचना और लक्षण वर्णन अध्ययन और श्रीनगर शहर के लिए प्रस्तावित प्रबंधन योजना"	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
38	माइक्रोबियल ईंधन सेल का उपयोग करके हरित ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
39	बायोपॉलिमर लिग्निन का उच्च मूल्य वाले रसायनों में विद्युत रासायनिक रूपांतरण	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
40	जल शुद्धिकरण अनुप्रयोग के लिए मिश्रित मैट्रिक्स झिल्लियों का विकास	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
41	ईंधन/हरित उर्वरक में रूपांतरण के लिए डल झील बायोमास का विश्लेषण और मूल्यांकन	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
42	ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण के लिए सूखी गिरी हुई चिनार की पत्तियों को जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अभिनव, वास्तविक समय दृष्टिकोण	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
43	स्मार्ट मीटर डेटा विश्लेषण का उपयोग करके गैर-घुसपैठ लोड मॉनिटरिंग ढांचे का डिजाइन और विकास	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
44	इष्टतम प्रदर्शन पैरामीटर प्राप्त करने के लिए पीएससी में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की डिजाइन और जांच।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
45	धात्विक नैनो कणों के समावेश के कारण कार्बनिक सौर कोशिकाओं में विद्युत मापदंडों की जांच।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
46	फोटोवोल्टिक अनुप्रयोगों के लिए ट्यून करने योग्य बैंड गैप पेरॉव्साइट सामग्री का विकास।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
47	वास्तुकला और प्रौद्योगिकी - एफपीजीए आधारित छवि प्रसंस्करण अनुप्रयोगों के लिए डीएसपी फिल्टर का आश्रित अनुकूलन।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
48	चिकित्सा इकाइयों में झूठे अलार्म को कम करने के लिए एक नवीन विधि	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
49	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटना: जम्मू और कश्मीर के लिए उपयोग का मामला	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
50	बोलने और सुनने में अक्षम लोगों के लिए वास्तविक समय का दोतरफा अनुवादक	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
51	भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुकूलित आईओटी-फॉग सहायता प्राप्त शीत आधारित मधुमेह निगरानी ढांचा	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
52	पूर्व स्तन घातकता का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित स्मार्ट मॉडल: एक जम्मू और कश्मीर परिप्रेक्ष्य	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
53	मौसम व्यवस्थाएं और समवर्ती सूखा और लू की घटनाएं	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
54	हवाई छवि विश्लेषण का उपयोग करके कश्मीर की डल झील में प्लास्टिक अपशिष्ट जमा का स्वचालित पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल विकसित करना	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
55	मशीन लर्निंग पहचान और पृथक्करण का उपयोग करके श्रीनगर शहर के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यू) के लिए कार्य योजना।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
56	स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट शहरों की पहचान के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कचरे का पता लगाना और वर्गीकरण करना	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
57	विषम यातायात स्थितियों के तहत श्रीनगर शहर के लिए यातायात भीड़ मॉडलिंग और सेवा स्तर का विश्लेषण।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
58	सूक्ष्म प्लास्टिक के जलीय भाग्य को चित्रित करने के लिए तलछट परिवहन और नदी हाइड्रोलिक से सीख का उपयोग करना।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
59	एनारोबिक मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर और एनामोक्स के साथ उच्च शक्ति अपशिष्ट जल और	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू

	घरेलू अपशिष्ट जल का टिकाऊ और ऊर्जा बचत सह-उपचार			
60	श्रीनगर के एकमात्र लैंडफिल अचान में लैंडफिल लीचेट उपचार के लिए सक्रिय चारकोल और बेंटोनाइट निर्मित आर्द्रभूमि	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
61	कार्स्ट स्थलाकृति के साथ ब्रेग घाटी की सिंकहोल संवेदनशीलता मानचित्रण	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
62	डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके कंक्रीट के कंप्रेसिव का अनुमान लगाना- एक कुशल गैर-विनाशकारी परीक्षण विधि।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
63	जैव- अभियांत्रिकी पर जोर देने के साथ टिकाऊ पर्यावरण-अनुकूल भूमि सुधार तकनीक का प्रायोगिक विश्लेषण	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
64	किफायती, भूकंपरोधी और टिकाऊ जानपद अभियांत्रिकी निर्माण के लिए धज्जी-देवरी	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
65	सेल्फ-हीलिंग कंक्रीट - अगली पीढ़ी की सड़क निर्माण सामग्री।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
66	ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में विभिन्न विफलताओं को कम करने के लिए बिटुमिनस पक्की सड़कों की डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया में संशोधन	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
67	शुष्क जलवायु वातावरण में कृषि को बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय जल संचयन के लिए ग्राफीन आधारित कृत्रिम जड़ी-बूटियाँ	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
68	लिथोसेल्यूलोसिक बायोमास का हरित ईंधन रसायनों में परिवर्तन से हाइड्रोजनमल द्रवीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूसरी पीढ़ी की जैव रिफाइनरी का निर्माण संभव हो सका।	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
69	कैंसर रोधी नेतृत्व के विकास के लिए बायोएक्टिव प्राकृतिक टेरपेनोइड्स के विद्युत रासायनिक संशोधन	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
70	एनपीके आधारित नमी बनाए रखने वाला सुपरएब्जॉर्बेंट उर्वरक: कृषि स्थिरता के लिए एक कुशल बायोडिग्रेडेबल और लागत प्रभावी उपकरण	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
71	विभिन्न आकाश सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना का अध्ययन	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
72	हाइड्रोजन उत्पादन के लिए दृश्य प्रकाश सक्रिय Cu <sub>2</sub> ZnSns <sub>4</sub> /MoS <sub>2</sub> नैनो कंपोजिट की वृद्धि और लक्षण वर्णन	26/12/2023	जे.के.एस.टी. एवं आई.सी	चालू
73	विभिन्न तकनीकों द्वारा न्यूनतम सतहें और उनका निर्माण।	16/10/2023	एन.बी.एच.एम.-डी.ए.ई	चालू
74	सुपरनी पर नैनो संरचित टीबीसी कोटिंग्स (Co, Cr, Al, Y/Ta/Hf और Ni, Co, Cr, Al, Y/Ta/Hf एक बॉन्ड कोटिंग के रूप में और 8% Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -ZrO <sub>2</sub> शीर्ष सिरेमिक कोटिंग) की डिजाइन और जांच एयरोस्पेस इंजनों के लिए 800-1000 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिकूल वातावरण में 718 सब्स्ट्रेट	12/06/2023	डी.आर.डी.ओ., नई दिल्ली	चालू
75	बीजगणितीय संरचनाओं द्वारा साकार संयोजन संरचनाओं पर	03/05/2023	परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) भारत सरकार	चालू
76	हवा, मिट्टी और औद्योगिक अपशिष्ट जल से हानिकारक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण के लिए कार्बनिक-अकार्बनिक नैनोसॉर्बेंट का विकास	14/07/2023	सी.एस.आई.आर. (ई.एम.आर.-II)	चालू
77	हाइड्रोजन विकास के लिए Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> /MoS <sub>2</sub> नैनोकम्पोजिट फोटोइलेक्ट्रोड का निर्माण	23/05/2023	डी.एस.टी.-एस.ई.आर.बी. सी.आर.जी	चालू
78	स्मार्ट ऑप्टिकल सेंसर के रूप में नैनोकण: हरित संश्लेषण मार्गों का विकास और कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों का पता लगाने में अनुप्रयोग	01/05/2023	यू.जी.सी.-डी.ए.ई	चालू
79	एयरोस्पेस के लिए 8000 oC-1000 oC पर प्रतिकूल वातावरण में सुपरनी-718 सब्स्ट्रेट पर नैनोस्ट्रक्चर्ड TBC कोटिंग्स (CoCrAlY/Ta/Hf और NiCoCrAlY/Ta/Hf एक बॉन्ड कोटिंग्स और 8% Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -ZrO <sub>2</sub> , शीर्ष सिरेमिक कोटिंग) के डिजाइन और जांच इंजन	27/04/2023	एयरोनॉटिक्स आर एंड डी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय	चालू

80	परमाणु अनुप्रयोग के लिए निकेल-आधारित सी-263 सुपरअलॉय पर नवीन डब्ल्यूसी-सीआर3सी2-एनआई कार्यात्मक रूप से वर्गीकृत मिश्रित कोटिंग्स का विकास	19/06/2023	एस.ई.आर.बी.-सी.आर.जी	चालू
----	---	------------	----------------------	------

क्र. सं	पी एंड डी विंग द्वारा किए गए नए कार्यों/परियोजनाओं का विवरण वित्तीय वर्ष 2023-2024	आवंटित लागत (लाख)	अनुमानित लागत (लाख)
<b>जानपद चरण में निष्पादित कार्य</b>			
1	संस्थान के न्यू गर्ल्स हॉस्टल की खुली बालकनियों में संरचनात्मक ग्लेज़िंग प्रदान करना और ठीक करना।	8.97	12.31
2	एस-प्रकार के आवासीय क्वार्टरों का नवीनीकरण (एस1 से एस24)	32.99	49.49
3	एल-टाइप गर्ल्स हॉस्टल का नवीनीकरण	12.53	18.95
4	इंडस हॉस्टल के पास शौचालय ब्लॉक का निर्माण (चालू)	37.20 □□□□: 17.50	49.67
<b>विद्युत चरण में निष्पादित कार्य</b>			
1	एस-टाइप क्वार्टरों (एस1 से एस24) का विद्युतीकरण।	17.92	33.09
2	आई-टी.बी.आई (ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन) के विद्युतीकरण का नवीनीकरण	9.80	17.83
क्र. सं	पी एंड डी विंग द्वारा किए गए नवीकरण कार्यों/परियोजनाओं का विवरण वित्तीय वर्ष 2022-2023	आवंटित लागत (लाख)	अनुमानित लागत (लाख)
<b>जानपद चरण में निष्पादित कार्य</b>			
1	डिस्टेंपरिंग और अन्य संबद्ध कार्यों के माध्यम से झेलम एक्सटेंशन बॉयज़ हॉस्टल का नवीनीकरण।	8.32	8.32
2	डिस्टेंपरिंग और अन्य संबद्ध कार्यों के माध्यम से सी-ब्लॉक बॉयज़ हॉस्टल का नवीनीकरण।	6.39	6.39
3	नवीन गर्ल्स हॉस्टल के पास पंप ऑपरेटर्स के लिए झूटी रूम का निर्माण।	8.80	8.80
4	मानसबल एवं गर्ल्स हॉस्टल के लिए रात्रि कैंटीन का निर्माण।	12.30	12.30
5	डिस्टेंपरिंग और अन्य संबद्ध कार्यों के माध्यम से तवी बॉयज़ हॉस्टल का नवीनीकरण।	10.52	10.52
6	गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच पथ का निर्माण, परिसर की दीवार को तोड़ना और पुनर्निर्माण करना, और मुख्य द्वार को स्थानांतरित करना और अन्य संबद्ध कार्य	12.49	12.49
7	आगामी गर्ल्स हॉस्टल के लिए कंपाउंड वॉल का निर्माण	8.26	8.26
8	झाड़ुंग हॉल की पेंटिंग और डिस्टेंपरिंग सहित एलआईआरसी को मुख्य संकाय ब्लॉक से जोड़ने वाले मार्ग तक ग्रेनाइट फ्लोरिंग का पी/एल।	10.24	10.24
9	पुराने गेस्ट हाउस के पास फुटबॉल मैदान/रनिंग ट्रैक और ओपन-एयर जिम तक पहुंच पथ का निर्माण।	4.04	4.04
10	सभी छात्रावासों में दरवाजे, खिड़कियां और स्वच्छता वस्तुओं की मरम्मत के माध्यम से मानसर और मानसबल छात्रावासों का नवीनीकरण।	7.50	7.50
11	सिंधु और चिनाब हॉस्टल में पुरानी जेराक्स दुकानों को नाइट कैंटीन में परिवर्तित करना।	6.08	6.08
12	मेगा बॉयज़ हॉस्टल के पास हेयर ड्रेसर और बुकस्टोर के लिए दुकानों का निर्माण, जिसमें जल संग्रहण कक्ष और मुख्य द्वार के पास जल निकासी के लिए संबद्ध कार्य शामिल हैं।	9.00	9.00
13	बाहरी पेंटिंग, डिस्टेंपरिंग और खिड़की के शटर की मरम्मत के माध्यम से केमिकल अभियांत्रिकी और सीएसई/ईसीई विभागों का नवीनीकरण।	7.50	7.50
14	चिनाब और सिंधु हॉस्टल में वार्डरोब के निर्माण सहित वॉशरूम का नवीनीकरण, जिसमें आगामी जल शोधक के लिए पाइपलाइन भी शामिल है।	6.00	6.00
15	नए गेस्ट हाउस और गर्ल्स हॉस्टल के लिए सुरक्षा चौकियों का निर्माण, जिसमें प्रशासनिक ब्लॉक में गलियारे का विभाजन और निदेशक बंगले की परिसर की दीवार की ऊंचाई बढ़ाना शामिल है।	6.00	6.00
16	पुराने कैंटीन भवन को सम्मेलन कक्ष में विकसित करना और छात्रों के गतिविधि केंद्र के पास ओपन-एयर थिएटर का निर्माण।	9.00	9.00
17	निकटवर्ती खुले क्षेत्र में कंक्रीट के ऊपर टाइल्स बिछाने, जल निकासी प्रणाली बिछाने, खाना पकाने के क्षेत्र का विस्तार, पेंटिंग और अन्य संबद्ध कार्यों के माध्यम से संस्थान कैफेटेरिया का उन्नयन।	14.00	14.00
18	आगामी प्लेस्कूल के लिए शौचालय और आंतरिक पेंटिंग का निर्माण।	3.56	3.56

विद्युत चरण में निष्पादित कार्य			
1	सी-ब्लॉक और झेलम एक्सटेंशन हॉस्टल में खराब/क्षतिग्रस्त स्विच/सॉकेट, दीवार पंखे, छत पंखे को बदलने और प्रकाश व्यवस्था में वृद्धि का अनुमान।	3.93	3.93
2	मानसर और मानसबल छात्रावासों में खराब/क्षतिग्रस्त स्विच/सॉकेट को बदलने और प्रकाश व्यवस्था को बढ़ाने और दाल छात्रावास के पास वॉशिंग टेंट को 3 चरण की आपूर्ति प्रदान करने का अनुमान।	1.10	1.10
3	तवी और झेलम छात्रावासों में खराब/क्षतिग्रस्त स्विच/सॉकेट, दीवार पंखे, छत पंखे बदलने और प्रकाश व्यवस्था बढ़ाने का अनुमान।	4.20	4.20
4	सिंधु, चिनाब छात्रावासों में खराब/क्षतिग्रस्त स्विच/सॉकेट, सीलिंग पंखे को बदलने और बंक बेड लाइटिंग में वृद्धि के लिए अनुमान।	7.41	7.41
5	जूनियर और सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में प्रकाश व्यवस्था में वृद्धि, खराब/क्षतिग्रस्त छत पंखे, दीवार पंखे के प्रतिस्थापन और बंक बेड के लिए चार्जिंग पॉइंट की स्थापना के लिए अनुमान।	9.95	9.95
6	रात्रि कैंटीनों के विद्युतीकरण का अनुमान।	2.51	2.51
7	संस्थान में नई उद्घाटन की गई खेल सुविधा के पास मंडप सह चेंजिंग रूम के विद्युतीकरण का अनुमान।	4.57	4.57
8	पंप हाउस के आवश्यक विद्युतीकरण के साथ-साथ संस्थान के पंप हाउस को बिजली पैनल उपलब्ध कराने और ठीक करने का अनुमान	5.64	5.64
9	संस्थान के आवासीय एल क्वार्टर (एल37-एल42) के विद्युतीकरण का नवीनीकरण।	7.39	7.39
10	परिसर में दिशा कार्यालय, प्रशासनिक ब्लॉक और मुख्य संकाय ब्लॉक के पास विभिन्न अंधेरे स्थानों में प्रकाश व्यवस्था बढ़ाने और बगीचे की लाइटों को बदलने का अनुमान।	9.71	9.71
11	सीएसई भवन में कंप्यूटर पॉइंट उपलब्ध कराने और ठीक करने का अनुमान।	4.15	4.15
12	भूमिगत फीडर पैनलों के साथ विभिन्न क्वार्टरों और अन्य ब्लॉकों के कनेक्शन का अनुमान।	9.72	9.72
13	प्रिपरेटरी कम क्रेच स्कूल के विद्युतीकरण और गतिविधि केंद्र के विद्युतीकरण के नवीनीकरण का अनुमान।	2.84	2.84
14	यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं (फ्लुइड मैकेनिक्स लैब, मेकैट्रॉनिक्स लैब और सस्टेनेबिलिटी लैब) का विद्युतीकरण।	5.85	5.85
15	गर्ल्स हॉस्टल और नए गेस्ट हाउस के पास सुरक्षा बैरक, हेयरड्रेसर की दुकान, किताबों की दुकान और सुरक्षा पोस्ट का विद्युतीकरण।	2.71	2.71
16	इंस्टीट्यूट कैफेटेरिया में इनडोर और आउटडोर प्रकाश व्यवस्था का विस्तार और कैफेटेरिया के पास नए सम्मेलन कक्ष का विद्युतीकरण।	4.78	4.78
17	छात्र गतिविधि केंद्र के पास आगामी एम्फीथिएटर के लिए प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना और ठीक करना।	5.02	5.02
18	संस्थान के चार हाईटेक कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था का नवीनीकरण और संवर्द्धन।	4.80	4.80
19	3एमवीए संस्थान पावर स्टेशन के एचटी केबल के प्रतिस्थापन के साथ 11 केवी एचटी स्विच गियर का नवीनीकरण।	3.51	3.51
20	ईडस हॉस्टल में क्षतिग्रस्त उप-मुख्य तारों का नवीनीकरण/प्रतिस्थापन।	1.28	1.28
21	तवी मेस के विद्युतीकरण का नवीनीकरण और तवी छात्रावास में उद्यान रोशनी की स्थापना।	6.82	6.82

• किए गए अनुबंधों का विवरण।

क्र. सं	अनुबंध का विवरण	को ठेका दिया गया	अनुबंध की राशि	अवधि
1.	जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध समझौता	लक्ष्मी चंद एंड संस, नई दिल्ली, दिल्ली- 110005	₹ 30,87,68,826.09	01.08.2023 □□ 31.07.2025 □□

2.	सुरक्षा जनशक्ति सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध समझौता	जी एक्टिव सिक्योरिटी सर्विस, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर-190018	₹ 9,65,07,645.31	01.04.2024 ☐☐ 31.03.2025 ☐☐
3.	दर अनुबंध के तहत स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति	एम/एस ईएसएससीओ पेपर मार्ट, श्रीनगर। एम/एस बंदे ट्रेडिंग कंपनी, श्रीनगर एम/एस गशा ट्रेडर्स, श्रीनगर। एम/एस एशियन एसोसिएट्स, श्रीनगर।	न्यूनतम उद्धृत कीमतों पर विभिन्न स्टेशनरी आइटम	07.11.2023 ☐☐ 30.06.2024 ☐☐
4.	दर अनुबंध के तहत पुस्तकों की आपूर्ति	एम/एस टीवी एंटरप्राइजेज, मुंबई - 400002 टेक्निकल ब्यूरो इंडिया प्रा. लिमिटेड, दिल्ली-110052	पुस्तकें/पत्रिकाएँ (भारतीय/विदेशी) उच्चतम छूट पर उपलब्ध हैं	23.01.2024 ☐☐ 31.03.2025 ☐☐
5.	दर अनुबंध के तहत दवाओं की आपूर्ति	हिलाल-ए-अहमर एंटरप्राइजेज, श्रीनगर केप्स स्केलपेल्स फार्मा प्रा. लिमिटेड, श्रीनगर	विभिन्न ब्रांडों की दवाओं पर एमआरपी पर उच्चतम छूट की पेशकश	17.08.2023 ☐☐ 30.06.2024 ☐☐
6.	रसायन/कांच के बर्तन/अभिकर्मकों/प्लास्टिक के बर्तन की आपूर्ति	अहमद साइंटिफिक कंपनी, श्रीनगर। बायोमेट सिस्टम्स, श्रीनगर। केमी हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, श्रीनगर बी.एम साइंटिफिक कंपनी, श्रीनगर	विभिन्न कंपनियों के रसायन/कांच के बर्तन/अभिकर्मक/प्लास्टिक के बर्तन कंपनी की मूल्य सूची में उच्चतम छूट की पेशकश पर हैं	12.10.2023 ☐☐ 30.06.2024 ☐☐
7	एनआईटी श्रीनगर के विभिन्न ब्लॉकों में नागरिक और संबद्ध कार्यों सहित वीआरएफ/वीआरवी-आधारित एचवीएसी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	स्टार नियोटेक इंजीनियर्स बेमिना, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर 190018	₹ 5,64,65,377/-	08.08.2023 ☐☐ 07.05.2024 ☐☐

**खरीद से संबंधित जानकारी:** संस्थान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जी.एफ.आर 2017 दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद संबंधी सभी गतिविधियां भी करता है। सभी सूचनाओं/ निविदा पूछताछ का प्रकाशन; उसके शुद्धिपत्र को संस्थान की वेबसाइट के साथ-साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर विधिवत बनाया गया है।

खरीद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।

- **वार्षिक रिपोर्ट्स।**

एन.आई.टी श्रीनगर वार्षिक रिपोर्ट के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।

- **अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

आर.टी.आई से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के लिए इस लिंक का अनुसरण करें।

कृपया एन.आई.टी के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इस लिंक का अनुसरण करें।

- **सिटीजन चार्टर**

कृपया एन.आई.टी श्रीनगर नागरिक चार्टर के लिए इस लिंक का अनुसरण करें।

शिक्षा मंत्रालय के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें; नागरिक चार्टर।

• परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़

कृपया शिक्षा मंत्रालय के लिए इस लिंक का अनुसरण करें; परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़

4.6. आर.टी.आई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उपलब्ध करायी गयी जानकारी का विवरण

विवरण के लिए इस लिंक का पालन करे |

4.7. संसद में पूछे गए सवालों के जवाब।

विवरण के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।

5. सूचना के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

5.1. नोडल अधिकारियों के नाम और विवरण; मौजूदा और पूर्व के सी.पी.आई.ओ और एफ.ए.ए

- नोडल अधिकारी: श्री मोहम्मद इकबाल डार  
पद: सहायक कुलसचिव, एन.आई.टी श्रीनगर  
ईमेल: miqbaldar@nitsri.ac.in फोन नंबर: 9596032446

सी. पी. आई. ओ के नाम और संपर्क विवरण।

मौजूदा सी.पी.आई.ओ	□□□□□ □□ □□.□□.□□.□
नाम: प्रो. अतीकुर रहमान पदनाम: प्रभारी कुलसचिव, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर ईमेल: registrar@nitsri.ac.in फोन: 0194-2421347	नाम: प्रो. सेयद कैसर बुखारी पदनाम: पूर्व कुलसचिव, एन.आई.टी श्रीनगर ईमेल: registrar@nitsri.ac.in फोन: 0194-2421347
	नाम: अभियंता फ़याज़ अहमद मीर (2015-2017) पदनाम: पूर्व कुलसचिव, एन.आई.टी श्रीनगर ईमेल: registrar@nitsri.ac.in फोन: 0194-2421347

एफ. ए. ए □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

वर्तमान एफ. ए. ए	□□□□□ □□ एफ. ए. ए
नाम: प्रो. गुलाम अशरफुल हरमैन ( 28-10-2022 से) पदनाम: अधिष्ठाता, संकाय कल्याण ईमेल: gharmain@nitsri.ac.in फोन: 9419018804	नाम: प्रो. शमीम ए लोन (2020-2022) पदनाम: डीन, संकाय कल्याण ईमेल: salone@nitsri.ac.in फोन: 9419501253
	नाम: प्रो. एम.एफ वानी (2018-2020) पदनाम: प्रोफेसर (एच.ए.जी) ईमेल: mfwani@nitsri.ac.in फोन: 8803824243
	नाम: प्रो. ए.एच मीर (2016-2018) पदनाम: प्रोफेसर (एच.ए.जी) ईमेल: ahmir@nitsri.ac.in फोन: 9419010409

- स्वतः संज्ञान से प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति।

*विवरण के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।*

- आर.टी.आई के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए आर.टी.आई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति।

*विवरण के लिए कृपया इस लिंक का अनुसरण करें।*

**6. भारत सरकार की वेबसाइटों (जी.आई.जी.डब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश**

- एस.टी.क्यू.सी प्रमाणन: रिपोर्ट संख्या: एस.टी.क्यू.सी-आई.टी(के.ओ.एल.)/ई.एस./ एन.आई.ओ.टी/181901/1085

**संस्थान अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां.**

**निदेशक और उसकी शक्तियां**

नियुक्ति: संस्थान के निदेशक की नियुक्ति विजिटर द्वारा उनके द्वारा गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर अनुबंध के आधार पर की जाती है, जिसमें कम से कम पांच सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्यों में से एक होंगे, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव वाले तीन अन्य विशेषज्ञ होंगे।

कार्यकाल: निदेशक को पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और यह संस्थान और निदेशक के बीच किए गए सेवा अनुबंध के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले संविधियों की अनुसूची-ए में निर्दिष्ट रूप में है।

### शक्तियां :

- i. विशिष्ट उद्देश्य के लिए किए गए बजट प्रावधानों के अधीन, निदेशक को अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय उठाने का अधिकार है।
- ii. निदेशक के पास प्रत्येक मद के लिए केंद्र सरकार में विभाग प्रमुख के लिए निर्दिष्ट सीमा तक आवर्ती बजट बनाने वाली विभिन्न मदों के संबंध में धन आवंटित करने की शक्ति है:c
- iii. बशर्ते कि ऐसे विनियोग में बजट में कोई वृद्धि और भविष्य के वर्षों में कोई दायित्व शामिल नहीं होगा:
- iv. बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक विनियोजन की सूचना यथाशीघ्र बोर्ड को दी जाएगी।
- v. निदेशक के पास दस हजार रुपये की सीमा तक अपूरणीय हानि और समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, सामान्य टूट-फूट या अप्रचलित होने के कारण खोई हुई या अनुपयोगी हो गई स्टोर वस्तुओं के अपरिवर्तनीय मूल्य की पच्चीस हजार रुपये की सीमा तक बट्टे खाते में डालने की शक्ति है।
- vi. निदेशक के पास निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा पहचाने गए अप्रचलित उपकरण या स्टोर आइटम को संस्थान के आसपास के किसी भी शैक्षणिक संस्थान को ऐसी सीमा तक दान करने की शक्ति है जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।
- vii. निदेशक, जहां वह नियुक्ति प्राधिकारी है, को चयन समिति की सिफारिशों पर, एक पद पर एक पदाधिकारी का प्रारंभिक वेतन न्यूनतम, वेतनमान से अधिक निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन पांच से अधिक वेतन वृद्धि शामिल नहीं है, उन पदों के संबंध में जो अधिनियम या इन संविधियों के प्रावधान द्वारा उनके द्वारा निहित शक्तियों के तहत उनके द्वारा की जाने वाली नियुक्ति की तुलना में की जाती है।
- viii. निदेशक को प्रयोगशालाओं, तकनीशियनों या तकनीकी अनुदेशकों और कुशल कामगारों में शिक्षण सहायक कर्मचारियों को नियोजित करने की शक्ति है, जो समय-समय पर आकस्मिकताओं से भुगतान करते हैं, इस तरह के पारिश्रमिक पर एक वर्ष से अधिक नहीं हैं जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।
- ix. निदेशक के पास ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जो अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, कर्मचारियों के सदस्यों को प्रशिक्षण या भारत के अंदर शिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने भेजने की शक्ति है।
- x. निदेशक के पास किसी भी भवन के निर्माण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अस्थायी आवंटन को मंजूरी देने की शक्ति है।
- xi. यदि किसी भी कारण से कुलसचिव अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, जो एक महीने से अधिक की अवधि न हो, निदेशक कुलसचिव के किसी भी कार्य के लिए स्वयं पदभार ग्रहण कर सकता है या किसी भी संकाय सदस्य या संस्थान के स्टाफ सदस्य को इस कार्य के लिए असाइन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे:
- xii. बशर्ते कि अगर किसी भी समय कुलसचिव की अस्थायी अनुपस्थिति; एक महीने से अधिक है, बोर्ड, यदि यह उचित समझती है, तो निदेशक को एक महीने से अधिक की अवधि के लिए कुलसचिव के कार्य को लेने या आवंटित करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
- xiii. संस्थान और निदेशक के बीच के अनुबंध को छोड़कर, संस्थान के लिए और संस्थान की ओर से सभी अनुबंध, जब बोर्ड द्वारा इस संबंध में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किए जाएंगे, लिखित रूप में होंगे और संस्थान के नाम पर किए जाएंगे और ऐसा प्रत्येक अनुबंध होगा संस्थान की ओर से निदेशक द्वारा निष्पादित किया जाएगा, लेकिन निदेशक ऐसे अनुबंध के तहत किसी भी चीज़ के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
- xiv. निदेशक, मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, विशेष रूप से उप निदेशक को या उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित डीन या वरिष्ठतम प्रोफेसर में से किसी एक को कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, आकस्मिकताओं और चिकित्सा

- उपचार के लिए और उसकी ओर से बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए अग्रिम मंजूरी लिखित रूप में अधिकृत कर सकता है।
- xv. निदेशक अपने विवेक से ऐसी समितियों का गठन कर सकता है, जिन्हें वह संस्थान के सुचारू कामकाज के लिए उपयुक्त समझे।
  - xvi. अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण उसके कार्यालय में कोई रिक्ति होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, निदेशक अधिनियम की धारा 16 के तहत अध्यक्ष को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
  - xvii. निदेशक, बोर्ड की मंजूरी से अधिनियम और कानून के आधार पर उनमें निहित अपनी किसी भी शक्ति, प्राधिकार या जिम्मेदारियों को संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक स्टाफ के एक या अधिक सदस्यों को सौंप सकता है।
  - xviii. संस्थान के निदेशक की अनुशासनात्मक शक्तियां संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा समय-समय पर तय की जाएंगी।

### उपनिदेशक

*नियुक्ति:* उप निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले संविधियों के कानून 23 (5) (क) के तहत प्रावधानों के संदर्भ में गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाती है।

*कार्यकाल:* नियुक्ति शुरू में तीन साल की अवधि के लिए होगी जिसे बोर्ड की सिफारिश पर एक-एक साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है। उप निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की पहली विधियों की अनुसूची-बी में निर्दिष्ट प्रपत्र में संस्थान और उप निदेशक के बीच किए गए सेवा अनुबंध के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होता है।

### शक्तियां:

- i. संस्थान के निदेशक के पद पर पद रिक्त होने के दौरान उपनिदेशक के पास निदेशक की सभी शक्तियां होती हैं।
- ii. उप निदेशक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के अन्य संस्थानों के साथ-साथ औद्योगिक उपक्रमों और अन्य नियोक्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने में निदेशक की सहायता करता है।

### कुलसचिव

*नियुक्ति:* कुलसचिव की नियुक्ति एनआईटी के नियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों पर की जाती है।

*कार्यकाल:* नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के आधार पर पांच वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि के लिए है।

*शक्तियां और कार्य:* कुलसचिव अभिलेखों, सामान्य मुहर, संस्थान की निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्तियों का संरक्षक है, जिन्हें बोर्ड अपने प्रभार में सौंपेगा। रजिस्ट्रार बोर्ड, सीनेट और ऐसी अन्य समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए उसे कानून के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर रजिस्ट्रार के प्रदर्शन की समीक्षा बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा की जा सकती है।

### संकायाध्यक्ष

*नियुक्ति:* निदेशक अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सूचित करते हुए संकायाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। संस्थान छह से अधिक डीनशिप स्थापित नहीं करेगा। केवल प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर ही डीन बनने के पात्र होंगे।

कार्यकाल: डीन अपने पद पर दो साल तक रहेगा जिसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है।

शक्तियाँ एवं कार्य: डीनशिप एक कार्यात्मक पद है न कि प्रशासनिक। एक डीन अपने डीनशिप के क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर निदेशक को सलाह देगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की पहली विधियों की अनुसूची 'सी' में डीन के व्यापक कार्यों की गणना की गई है।

## विभाग एवं केंद्र का प्रमुख

*नियुक्ति: संस्थान के प्रत्येक विभाग और केंद्र का प्रभारी एक प्रमुख होता है, जिसे निदेशक द्वारा उस विभाग या केंद्र के प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों में से चुना जाता है; बशर्ते कि यदि किसी विभाग या केंद्र में कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, तो निदेशक उस विभाग या केंद्र के एक सहायक प्रोफेसर को विभाग या केंद्र का प्रमुख नियुक्त कर सकता है।*

जब विभाग या केंद्र के प्रमुख के पद पर नियुक्ति हो जाती है, तो निदेशक प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र व्यक्तियों की इच्छा का पता लगाएगा, और आम तौर पर पात्र और इच्छुक व्यक्तियों में से रोटेशन के आधार पर एक व्यक्ति का चयन करेगा। जब भी रोटेशन के सिद्धांत से विचलन का प्रस्ताव किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति केवल अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पूर्व मंजूरी के साथ और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से की जाएगी और साथ ही सीनेट और बोर्ड को उनकी अगली बैठकों में विचलन के कारणों के साथ भी सूचित किया जाएगा।

*कार्यकाल: किसी विभाग या केंद्र का प्रमुख दो साल की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा। बशर्ते कि उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक पद धारण करते रहेंगे; यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगातार किसी विभाग या केंद्र का नेतृत्व नहीं करेगा जब तक कि उसे विशेष रूप से दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त न किया जाए।*

निदेशक स्वयं किसी विभाग का अस्थायी प्रभार ले सकता है या उसे छह माह से अधिक की अवधि के लिए उपनिदेशक या किसी अन्य विभाग के प्रोफेसर के प्रभार में रख सकता है।

*शक्तियाँ और कार्य: विभागाध्यक्ष निदेशक के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन विभाग के संपूर्ण कामकाज के लिए जिम्मेदार है। विभागाध्यक्ष यह देखने के लिए बाध्य हैं कि संस्थान के अधिकारियों और निदेशक के निर्णयों का ईमानदारी से पालन किया जाए। वह ऐसे अन्य कर्तव्य निभाएगा जो उसे निदेशक या सीनेट द्वारा सौंपे जाएं।*

## संस्थानीय अधिकारियों की ड्यूटी

क्र. सं	वर्ग	पदनाम	विभाग/संवर्ग	प्रदर्शित कार्य की प्रकृति
1.	वर्ग क	सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर	शैक्षणिक विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण और व्यावहारिक कार्य करना और पीएचडी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम कार्य संचालित करना।</li> <li>व्यक्तिगत विशेषज्ञता के तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान करना।</li> <li>पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन करना।</li> <li>शैक्षणिक पहुंच गतिविधियों को अंजाम देना।</li> <li>विभागों में चल रही तकनीकी परियोजना में योगदान देना।</li> <li>विभाग में पढ़ने वाले छात्रों की बी.टेक/एम.टेक/एम.एससी/पीएचडी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करें।</li> <li>संस्थान की आवश्यकता के अनुसार और विभाग के प्रमुख/निदेशक द्वारा सूचित कोई अन्य कर्तव्य।</li> <li>सामान्य शिक्षण कार्य के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालना।</li> </ul>
2.	वर्ग क	कुलसचिव	प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> <li>कुलसचिव अपने कार्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी है।</li> <li>वह संस्थान के रिकॉर्ड और सामान्य मुहर और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का संरक्षक है जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसके प्रभार के लिए प्रतिबद्ध करता है।</li> <li>वह प्रशासन से संबंधित कानूनी मामलों से संबंधित है।</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>वह संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं और उप कुलसचिव (लेखा), सहायक कुलसचिव (लेखा), उप कुलसचिव (शैक्षणिक), उप कुलसचिव (प्रशासन एवं स्थापना), सहायक कुलसचिव (प्रशासन) उप कुलसचिव (स्टोर), पूर्व अभियंता (संपदा मुख्या), आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक कुलसचिव (लेखा परीक्षा), लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, एसएएस अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारी आदि के रिपोर्टिंग अधिकारी हैं।</li> <li>निदेशक एन.आई.टी. श्रीनगर द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
3.	वर्ग क	उप कुलसचिव /संयुक्त कुलसचिव	शैक्षणिक	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रवेश (यूजी, पीजी और पीएचडी), नामांकन, पहचान पत्र जारी करने, प्रवेश ति छात्रों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड को बनाए रखने, संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) की सहायता करने जैसे सभी शैक्षणिक मामलों से संबंधित हैं।</li> <li>शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने और रखरखाव, परीक्षाओं के संचालन, दीक्षांत समारोह का संचालन, डिग्री, पुरस्कार, पदक, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने, माइग्रेसन प्रमाण पत्र, वास्तविक प्रमाण पत्र, डिग्री, और शैक्षणिक मामलों से उत्पन्न कानूनी मामलों के रिकॉर्ड को बनाए रखने में निदेशक की सहायता करता है।</li> <li>कुलसचिव/निदेशक एन.आई.टी. श्रीनगर द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
4.	वर्ग क	उप कुलसचिव /संयुक्त कुलसचिव	लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्षिक बजट तैयार करना, संशोधित बजट अनुमान, हर वित्तीय लेन-देन को बनाए रखना, कर्मचारियों के आयकर से निपटना, व्यावसायिक कर और अन्य करों, वेतन का वितरण, पेंशन, छात्रवृत्ति, पारिश्रमिक, संविदात्मक राशि, बिलों के विरुद्ध भुगतान।</li> <li>संस्थान खाते वाले बैंकों के साथ संपर्क करना।</li> <li>सीएजी के साथ समन्वय करना, वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना और निदेशक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्यों को पूरा करना।</li> <li>उप कुलसचिव लेखा अनुभाग में कार्यरत उप-समन्वयों की निगरानी, निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करने जैसी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहा है।</li> <li>कुलसचिव/निदेशक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
5.	वर्ग क	उप कुलसचिव /संयुक्त कुलसचिव	भंडार	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपयुक्त प्राधिकारी से अनुमोदन/अनुमोदन के अनुसार स्थिर, लिवर, उपकरण आदि जैसी पदार्थ की खरीद।</li> <li>सभी खरीद और उनके निपटान का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखें और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में, उसके तहत काम करने वाले उप-समन्वयों की निगरानी, निगरानी और मार्गदर्शन करें।</li> <li>प्रयोगशालाओं में इसे छोड़कर और सभी सहायता जांच और लेखा परीक्षा कर्मचारियों को देने के अलावा विभाग के स्टोर फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग के शुल्क धारण करना।</li> <li>कक्षा, कर्मचारी कक्ष, भोजन कक्ष, स्वच्छता ब्लॉक, प्रवेश लॉबी, बालकनी, छतों आदि सहित विभाग का रखरखाव।</li> <li>सभी स्टॉक पुस्तकों का होल्डिंग चार्ज।</li> <li>लेजर छुट्टी रजिस्टर, फाइलें, स्टेशनरी आदि</li> <li>विभिन्न रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां करने सहित सामग्रियों की प्राप्ति और निर्गम।</li> <li>उस बिल, उनके पारित होने सहित विभागीय पत्राचार को संभालना।</li> <li>स्टेशनरी और अन्य सामग्रियों को इंडेंट करना, पत्राचार पंजीकरण, कोटेशन आदि को संभालना।</li> <li>कुलसचिव/निदेशक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
6.	वर्ग क	उप कुलसचिव/संयुक्त कुलसचिव	प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थान के प्रशासक के रूप में कर्तव्यों को अंजाम देने में कुलसचिव की सहायता करना।</li> <li>ताकि बीओजी, एफसी, सीनेट, बीडब्ल्यूसी आदि समितियों की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।</li> <li>कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली पेशेवर, कुशल और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें।</li> <li>संस्थान के नियमों और विनियमों की व्याख्या और कार्यान्वयन जो सीधे रजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्यों से संबंधित हैं।</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• मंत्रालय के साथ संपर्क करना -प्रश्नों का उत्तर दें और संस्थान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें।</li> <li>• कुलसचिव/निदेशक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य ।</li> </ul>
7.	वर्ग क	सहायक कुलसचिव	परीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• परीक्षाओं के संचालन के लिए समग्र समन्वय, योजना, तैयारी, इंडक्शन, परीक्षा अधीक्षण की व्यवस्था आदि।</li> <li>• पेपर सेटर, प्रैक्टिकल परीक्षक, मॉडरेटर, मूल्यांकनकर्ता, पेपर नोटिंग के साथ प्रत्येक डेटा को बनाए रखने के लिए टैबुलेटर की नियुक्ति।</li> <li>• परीक्षक कोड कार्यक्रमवार तैयार करना और प्रदान करना।</li> <li>• विभागों से पुरस्कार सूची प्राप्त करने के लिए वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र कार्यक्रम वार प्राप्त करने के लिए</li> <li>• कुलसचिव/निदेशक/उप कुलसचिव (परीक्षा) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य ।</li> </ul>
8.	वर्ग क	सहायक कुलसचिव	छात्रावास	<ul style="list-style-type: none"> <li>• छात्रावास एडमिशन शुल्क प्राप्त करना।</li> <li>• सभी छात्रावासों से प्राप्त नकदी को संभालना और प्रतिदिन बैंक को प्रेषण करना।</li> <li>• सभी हॉस्टलों के रिफंड वाउचर तैयार करने के साथ ही छात्रों को रिफंड का भुगतान किया जाए।</li> <li>• छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक छात्रों के व्यक्तिगत लेखाकार के रजिस्टर को बनाए रखना a) कमरे का किराया b) हॉस्टल जमा c) मेस डिपॉजिट d) क्रॉकरी e) मनोरंजन f) पानी और बिजली शुल्क।</li> <li>• सभी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के छात्रावास जमा के एवज में बकाया गड़बड़ी, पानी और बिजली का समायोजन।</li> <li>• छात्रावास वार्डन के नाम के खिलाफ एडवांस वाउचर तैयार करना और उनका रिकॉर्ड बनाए रखना।</li> <li>• छात्रावासों द्वारा कॉलेज खाते में देय किराया, बिजली और अन्य बकाया राशि का रिकॉर्ड बनाए रखना</li> <li>• हर सत्र के अंत में वार्डन को दिए गए अग्रिम को अंतिम रूप देना।</li> <li>• छात्रावासों के सभी मौद्रिक लेनदेन को दिखाने वाले खाता को बनाए रखना।</li> <li>• कॉलेज के विभिन्न विभागों/खंडों के साथ पत्राचार ।</li> <li>• सभी छात्रावासों के रिकॉर्ड को बनाए रखना जैसे कि मेस-बिल प्रतियां, डिफॉल्टर सूचियां, बिजली और पानी शुल्क, छात्र जमा, मनोरंजन, क्रॉकरी आदि जैसे सभी मामलों से संबंधित।</li> <li>• डी एफ आर के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय में कैश बुक का रखरखाव</li> <li>• कुलसचिव/निदेशक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
9.	वर्ग क	सहायक कुलसचिव	लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ट्यूशन व अन्य शुल्क व कॉलेज की अन्य सभी रसीदें प्राप्त करना।</li> <li>• वेतन व अन्य बिलों के भुगतान की व्यवस्था करना।</li> <li>• कनेक्टेड रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए</li> <li>• कार्यों और आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का प्री ऑडिट करना और खाता खातों को बनाए रखना।</li> <li>• वार्षिक अंतिम खातों यानी परीक्षण शेष, आय और व्यय खातों, बैलेंस शीट को आकर्षित करना।</li> <li>• उप कुलसचिव (लेखा) और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सभी कर्तव्यों को प्राप्त करना।</li> </ul>
10.	वर्ग क	सहायक कुलसचिव	अंकेक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लेखा अनुभाग द्वारा प्राप्त प्रत्येक बिल का निरीक्षण, जांच और ऑडिट करें। प्रशासन/स्थापना अनुभाग से प्राप्त वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों की जांच करें ।</li> <li>• सीएजी के साथ संपर्क बनाए रखें। सेवा नियमों की व्याख्या में अधिकारियों की सहायता करें, खासकर जहां सार्वजनिक धन शामिल है ।</li> <li>• भुगतान के लिए पारित होने से पहले सभी बिलों का प्री ऑडिट करना।</li> <li>• उन सभी महत्वपूर्ण मामलों से निपटना जिनमें नियमों की व्याख्या आवश्यक है और सभी भवन निर्माण कार्य के लिए निविदा, समझौते, बिल आदि।</li> <li>• कुलसचिव/निदेशक/उप कुलसचिव (लेखा) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य ।</li> </ul>
11.	वर्ग क	सहायक कुलसचिव	प्रशासन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नियमित, अस्थायी, तदर्थ या संविदात्मक सगाई पर नियुक्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रबंधन/स्थापना से संबंधित सभी</li> </ul>

				<p>मामलों से निपटना। एन.आई.टी. श्रीनगर चाहे स्थायी हो या अस्थायी, इसके बल पर हर व्यक्ति का रिकॉर्ड बनाए रखें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड बनाए रखें और नियुक्ति, सगाई, पदोन्नति, सेवा शर्तों, अनुशासनात्मक मामलों, छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, पुलिस सत्यापन, सरकारी कर्तव्यों पर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, वेतन बिल, पेंशन बिल और अधिकारियों द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य मामले से संबंधित मामलों को बनाए रखें और उनके अधीन काम करने वाले उप-समन्वयों की निगरानी, निगरानी और मार्गदर्शन करें।</li> <li>• संकायाध्यक्ष (संकाय कल्याण) /कुलसचिव और अन्य सक्षम प्राधिकरणों के मार्गदर्शन के अनुसार अन्य सभी शासकीय प्रतिष्ठान संबंधित मामले को प्राप्त करना।</li> </ul>
12.	वर्ग क	पुस्तकालय अध्यक्ष	पुस्तकालय और सूचना केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पुस्तकालय में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार।</li> <li>• पुस्तकों की सूची और पत्रिकाओं की बाध्य मात्रा</li> <li>• कैटलॉग कार्ड की अनुक्रमण।</li> </ul>
13.	वर्ग क	उप पुस्तकालय अध्यक्ष	पुस्तकालय और सूचना केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कैटलॉग अलमारियों का रखरखाव।</li> <li>• अतिरिक्त की सूची तैयार करना।</li> <li>• बुक कार्ड, डेट लेबल और सभी प्रोसेसिंग वर्क तैयार करना।</li> <li>• परियोजना रिपोर्टों की ग्रंथसूची, अमूर्त और प्रलेखन की तैयारी।</li> <li>• अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सभी कर्तव्यों को प्राप्त करना।</li> </ul>
14.	वर्ग क	सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	पुस्तकालय और सूचना केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वार्षिक प्राप्त पत्रिकाओं के सभी नवीकरण कार्य और मुद्दों की अनुपलब्धता के लिए जिम्मेदार।</li> <li>• वाचनालय के समाचार पत्र और सामान्य पर्यवेक्षण की देखभाल करना।</li> <li>• संदर्भ अनुभाग का पर्यवेक्षण और रखरखाव</li> <li>• बाध्य मात्रा और इसकी इमारत का संकलन।</li> <li>• पुस्तकों का पुनः बाध्यकारी कार्य।</li> <li>• पुस्तकालयों की माइक्रोफिल्मों और फोटो प्रतियों की देखभाल करना और उन्हें शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना।</li> <li>• सभी शासकीय पुस्तकालय कार्य प्राप्त करना।</li> <li>• कुलसचिव/निदेशक/लाइब्रेरियन द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
15.	वर्ग क	सिद्धान्त एस.ए.एस अधिकारी	फिजिकल एजुकेशन (खेल)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• छात्र खेल सचिव के साथ समन्वयः</li> <li>• पिछले और वर्तमान वर्षों के खेल सामानों का स्टॉक रखते हुए।</li> <li>• निदेशक के परामर्श से खेल के सामान का आर्डर देना।</li> <li>• निदेशक के परामर्श से खेल आयोजनों के लिए स्थानों की व्यवस्था करना।</li> <li>• विभिन्न खेलों का प्रदर्शन</li> <li>• निदेशक के साथ समन्वयः</li> <li>• संस्थान परिसर में खेल स्पर्धाओं के आयोजन की अनुमति प्राप्त करना।</li> </ul>
16.	वर्ग क	वरिष्ठ एस.ए.एस अधिकारी	फिजिकल एजुकेशन (खेल)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इंटर या इंटर कॉलेज की घटनाओं में भाग लेने की अनुमति के लिए छात्रों की सिफारिश करना।</li> <li>• खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले छात्रों को उपस्थिति की सिफारिश करना।</li> <li>• मैचों के दौरान होने वाले किसी भी मुद्दे (टीम चयन, आपत्तियां, झगड़े आदि) सुलझाएं।</li> <li>• कॉलेज के और बाहर होने वाले सभी आयोजनों में अनुशासन बनाए रखना।</li> </ul>
17.	वर्ग क	एस.ए.एस अधिकारी	फिजिकल एजुकेशन (खेल)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्टाफ सदस्यों के लिए खेल स्पर्धाओं का आयोजन।</li> <li>• संस्थान के भीतर, संस्थान के बाहर के छात्रों द्वारा भाग लिया खेल स्पर्धाओं के रिकॉर्ड बनाए रखना।</li> <li>• सेक्शन अध्यक्ष/निदेशक/कुलसचिव द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> <li>• प्रमुख वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी संसाधनों के इष्टतम उपयोग सहित संस्थान की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समग्र योजना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।</li> </ul>

18.	वर्ग क	व्याख्याता	फिजिकल एजुकेशन (खेल)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार उचित प्रशासन और शैक्षणिक प्रबंधन के लिए।</li> <li>• नियमों के उचित प्रवर्तन के लिए; और</li> <li>• स्टाफ और छात्रों के कल्याण और अनुशासन के लिए।</li> <li>• शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना।</li> <li>• उद्योग-संस्था सहयोग और उद्योग उन्मुख अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।</li> <li>• संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन।</li> <li>• जनसंपर्क और समुदाय के साथ बातचीत।</li> <li>• शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना और समन्वय करना।</li> <li>• सेक्शन अध्यक्ष/निदेशक/कुलसचिव द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
19.	वर्ग क	सिद्धांत तकनीकी अधिकारी	नेटवर्क/कंप्यूटर केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वैज्ञानिक अधिकारी अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।</li> <li>• वैज्ञानिक अधिकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करते हैं और अधिकतम दक्षता और प्रगति के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं और अनुसंधान के चरणों के बीच काम का समन्वय करते हैं।</li> <li>• वे रिपोर्ट पर चर्चा करने या परियोजनाओं की व्याख्या करने के लिए ग्राहकों या नियामकों के साथ भी मिल सकते हैं। वैज्ञानिक अधिकारी नीति निर्माण, बौद्धिक संपदा या प्रयोगशाला स्थलों के प्रबंधन से संबंधित कार्यों पर अन्य विभागों के साथ भी काम करते हैं।</li> <li>• अभिन्न माध्यमिक नौकरी कर्तव्यों में कर्मियों को काम पर रखना, उन्हें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण देना और उनके अनुसंधान की निगरानी करना शामिल है।</li> <li>• इसके अतिरिक्त, वे स्वीकार्य कार्य नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करते हैं जो सरकार या उद्योग नियामक मानकों को पूरा करते हैं।</li> <li>• सेक्शन अध्यक्ष/निदेशक/कुलसचिव द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
20.	वर्ग क	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	नेटवर्क/ कंप्यूटर केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अन्य प्रयोगशाला कर्मचारियों की मदद से विभाग की प्रयोगशालाओं के सामान्य रखरखाव को देखने के लिए।</li> <li>• अन्य विभागों से जारी और प्राप्त होने के बाद ऑडियो विजुअल उपकरण जैसे फिल्म प्रोजेक्टर आदि को बनाए रखना।</li> <li>• यह देखने के लिए कि सभी प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रम में काम कर रहे हैं।</li> <li>• उपकरणों को पुनः जोड़े गए या बाहरी एजेंसी से मरम्मत करना और इस संबंध में पत्राचार करना।</li> <li>• अन्य विभाग से सहायता की व्यवस्था करना। छात्रों के प्रोजेक्ट वर्क के लिए।</li> <li>• टीचिंग स्टाफ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशेष कार्य करना।</li> <li>• सेक्शन अध्यक्ष/डायरेक्टर/रजिस्ट्रार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
21.	वर्ग क	तकनीकी अधिकारी	नेटवर्क/ कंप्यूटर केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अन्य प्रयोगशाला कर्मचारियों की मदद से विभाग की प्रयोगशालाओं के सामान्य रखरखाव को देखने के लिए।</li> <li>• अन्य विभागों से जारी और प्राप्त होने के बाद ऑडियो विजुअल उपकरण जैसे फिल्म प्रोजेक्टर आदि को बनाए रखना।</li> <li>• यह देखने के लिए कि सभी प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रम में काम कर रहे हैं।</li> <li>• उपकरणों को पुनः जोड़े गए या बाहरी एजेंसी से मरम्मत करना और इस संबंध में पत्राचार करना।</li> <li>• अन्य विभाग से सहायता की व्यवस्था करना। छात्रों के प्रोजेक्ट वर्क के लिए।</li> <li>• टीचिंग स्टाफ द्वारा सौंपा गया कोई अन्य विशेष कार्य करना।</li> <li>• सेक्शन अध्यक्ष/डायरेक्टर/रजिस्ट्रार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
22.	वर्ग क	अधीक्षक अभियंता	संपदा रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ड्राइंग ऑफिस और इंस्ट्रुमेंट्स और स्टेशनरी, ट्रेसिंग, ड्राइंग और ब्लू प्रिंट और उनके रखरखाव का होलिंग चार्ज।</li> <li>• प्राक्कलन और मसौदा निविदा पत्र तैयार करना।</li> <li>• ठेकेदारों के बिल तैयार करना।</li> <li>• निर्माण कार्य और कॉलेज परिसर रखरखाव कार्य का पर्यवेक्षण करें।</li> <li>• मस्टर रोल और प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।</li> <li>• ठेकेदारों के लिए तुलनात्मक विवरण तैयार करना।</li> <li>• अन्य तकनीकी कार्यालय कार्य और भवन अनुरक्षण आदि।</li> <li>• निदेशक/कुलसचिव द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
23.	वर्ग क	वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता	संपदा रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी परिसर में स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, छात्रों को सुरक्षित, प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों का आयोजन।</li> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्टाफ मेडिकल स्टाफ से काम करवाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य विनियमों को बदलने के बारे में अद्यतित जानकारी देते हैं।</li> <li>• अपने दैनिक कर्तव्यों चिकित्सकों के लिए नैदानिक मार्गदर्शन की पेशकश, नीति में परिवर्तन नवाचार, गुणवत्ता में सुधार के प्रयास शुरू करने, सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन, एक</li> </ul>
24.	वर्ग क	कार्यपालक अभियंता	संपदा रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी परिसर में स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, छात्रों को सुरक्षित, प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों का आयोजन।</li> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्टाफ मेडिकल स्टाफ से काम करवाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य विनियमों को बदलने के बारे में अद्यतित जानकारी देते हैं।</li> <li>• अपने दैनिक कर्तव्यों चिकित्सकों के लिए नैदानिक मार्गदर्शन की पेशकश, नीति में परिवर्तन नवाचार, गुणवत्ता में सुधार के प्रयास शुरू करने, सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन, एक</li> </ul>
25.	वर्ग क	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी परिसर में स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, छात्रों को सुरक्षित, प्रभावी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टरों का आयोजन।</li> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्टाफ मेडिकल स्टाफ से काम करवाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य विनियमों को बदलने के बारे में अद्यतित जानकारी देते हैं।</li> <li>• अपने दैनिक कर्तव्यों चिकित्सकों के लिए नैदानिक मार्गदर्शन की पेशकश, नीति में परिवर्तन नवाचार, गुणवत्ता में सुधार के प्रयास शुरू करने, सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन, एक</li> </ul>

				<p>बजट विकसित करने, निवासी धन में सहायता, और समुदाय के रिश्तों के समन्वय शामिल हो सकते हैं ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी छात्रों और कर्मचारियों को हीथ केयर देने के अलावा इस सुविधा के प्रदर्शन के बारे में अध्यक्ष, निदेशक और विभाग प्रमुखों के साथ बात करने के लिए बैठकों में भी भाग लेंगे ।</li> <li>• निदेशक/कुलसचिव द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>
26.	वर्ग क	चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य केंद्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>• चिकित्सा अधिकारी छात्रों और कर्मचारियों के लिए हीथ देखभाल सेवाओं का विस्तार करने के अलावा, वह चिकित्सा रिकॉर्ड का आयोजन किया जाना है ।</li> <li>• रिपोर्ट तैयार करें और विभिन्न प्रस्तुतियों या लेखों के साथ चिकित्सकों/वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी की सहायता करें । चिकित्सा प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग करना, रिकॉर्ड चिकित्सा इतिहास और अस्पताल में भर्ती या अन्य प्रक्रियाओं के लिए रोगियों अनुसूची।</li> <li>• उनके कर्तव्यों में बहीखाता कार्य शामिल हैं, जैसे बिलिंग रोगियों, वित्तीय और कर रिपोर्ट तैयार करना और चालान प्रसंस्करण करना ।</li> <li>• निदेशक/कुलसचिव/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य कर्तव्यों के घंटों के बाहर सभी आपातकालीन कॉल में भाग लेना।</li> <li>छुट्टी अवधि के दौरान जूनियर इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी देखना।</li> <li>खंड अध्यक्ष/प्रधान द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
10.	वर्ग ख	सहायक अभियंता	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिसर में सभी ब्लॉकों पर आंतरिक प्रतिष्ठानों पर सभी टूटने के लिए भाग लेने।</li> <li>नए आंतरिक प्रतिष्ठानों का निष्पादन।</li> <li>सभी आंतरिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच।</li> <li>अवकाश अवधि के दौरान कार्यपालक अभियंता की ड्यूटी देखना।</li> <li>खंड अध्यक्ष/प्रधान द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
11.	वर्ग ख	सहायक अभियंता एस.जी-II	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
12.	वर्ग ख	सहायक अभियंता एस.जी-I	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
13.	वर्ग ख	एस.ए.एस सहायक	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	<ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों और संस्थान से संबंधित गतिविधियों जैसे खेल, नाटक, संगीत, फिल्म, चित्रकला, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, सेमिनार, सम्मेलन, दीक्षांत समारोह, छात्र समारोह आदि के इवेंट्स (इवेंट मैनेजमेंट) का प्रबंधन करें।</li> <li>खंड अध्यक्ष/प्रधान द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
14.	वर्ग ख	वरिष्ठ एस.ए.एस सहायक	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
15.	वर्ग ख	एस.ए.एस सहायक एस.जी-II	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
16.	वर्ग ख	एस.ए.एस सहायक एस.जी-I	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
17.	वर्ग ख	पुस्तकालय और सूचना सहायक	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिसंचरण डेस्क पर किताबें, पत्रिकाएं, वीडियोटेप और अन्य सामग्रियों को उधार दें और एकत्र करें।</li> <li>संगणक पर छात्र/कर्मचारी रिकॉर्ड दर्ज करें और अपडेट करें।</li> <li>पुस्तकों, ऑडियो-विजुअल पदार्थ और संगणक सॉफ्टवेयर सहित नई सामग्रियों को प्रक्रिया करें।</li> <li>स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पुस्तकों, प्रकाशनों और अन्य मदों को सॉर्ट करें और उन्हें अलमारियों, फ्राइलों या अन्य नामित भंडारण क्षेत्रों में वापस करें।</li> <li>छात्रों/कर्मचारी के लिए पुस्तकालय पदार्थ का पता लगाएं, जिसमें किताबें, पत्रिकाएं, टेप कैसेट, ब्रेल अंक और चित्र शामिल हैं।</li> <li>संदर्भ स्रोतों, कार्ड कैटलॉग और स्वचालित सूचना प्रणालियों का उपयोग करने के तरीके पर छात्रों को निर्देश दें।</li> <li>शर्त और नियत तिथि की स्थिति के लिए लौटाई गई पुस्तकों का निरीक्षण करें, और किसी भी लागू जुर्माने की गणना करें।</li> <li>नियमित जांच का जवाब दें, और पुस्तकालयाध्यक्षों को पेशेवर सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों का उल्लेख करें।</li> <li>सेक्शन अध्यक्ष/कुलसचिव/निदेशक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य</li> </ul>
18.	वर्ग ख	वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
19.	वर्ग ख	पुस्तकालय और सूचना सहायक एस.जी-II	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
20.	वर्ग ख	पुस्तकालय और सूचना सहायक एस.जी-I	संवर्ग -5 उच्च तकनीकी	
21.	वर्ग ग	औषधकारक	संवर्ग -6 औषधकारक	<ul style="list-style-type: none"> <li>मरीजों को दवाइयां वितरित करना।</li> <li>मिश्रण और मलहम की तैयारी।</li> </ul>
22.	वर्ग ग	वरिष्ठ औषधकारक	संवर्ग -6 औषधकारक	
23.	वर्ग ख	औषधकारक एस.जी-II	संवर्ग -6 औषधकारक	<ul style="list-style-type: none"> <li>बिल तैयार करना और दवाओं की खरीद।</li> <li>चिकित्सा बिलों और खरीद का रिकॉर्ड रखना</li> <li>वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
24.	वर्ग ख	औषधकारक एस.जी-I	संवर्ग -6 औषधकारक	
25.	वर्ग ग	सहायक एस.जी-I	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	<ul style="list-style-type: none"> <li>नियमित कार्य से निपटना और सहायक रिकॉर्ड बनाए रखना।</li> <li>संगणक पर टाइपिंग कार्य में भाग लेने के लिए, एक्सेल शीट और रिपोर्ट तैयार करें।</li> <li>हैंडलिंग लीव (सीएल और वैकल्पिक अवकाश) पत्राचार और अवकाश रजिस्ट्रार में प्रवेश करना, अवकाश अभिलेखों का रखरखाव।</li> <li>कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए रखें।</li> <li>खंड प्रमुख/प्रधान द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
26.	वर्ग ग	सहायक एस.जी-II	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	
27.	वर्ग ग	वरिष्ठ सहायक	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	
28.	वर्ग ग	कनिष्ठ सहायक	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	
29.	वर्ग ख	अधीक्षक एस.जी-I	संवर्ग -3	

30.	वर्ग ख	अधीक्षक एस.जी-II	उच्च मंत्रीपदीय संवर्ग -3 उच्च मंत्रीपदीय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुभाग के कामकाज पर पर्यवेक्षण और महत्वपूर्ण फाइलों से निपटने के लिए।</li> <li>• अधिक जिम्मेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेना और संबंधित अनुभाग में सहायकों द्वारा किए गए कार्यों पर कुछ जांच करना।</li> <li>• खंड-अध्यक्ष/कुलसचिव/निदेशक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
31.	वर्ग ख	वरिष्ठ अधीक्षक	संवर्ग -3 उच्च मंत्रीपदीय	
32.	वर्ग ख	अधीक्षक	संवर्ग -3 उच्च मंत्रीपदीय	
33.	वर्ग ग	आशुलिपिक	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अधिकारियों के श्रुतलेख कार्य में भाग लेना और महत्वपूर्ण/गोपनीय टंकण कार्य में भाग लेना।</li> <li>• कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड बनाए रखना।</li> <li>• खंड अध्यक्ष/प्रधान द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ul>
34.	वर्ग ग	वरिष्ठ आशुलिपिक	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	
35.	वर्ग ख	आशुलिपिक एस.जी-II	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	
36.	वर्ग ख	आशुलिपिक एस.जी-I	संवर्ग -2 निम्न मंत्रीपदीय	
37.	वर्ग ख	निजी सहायक	संवर्ग -3 उच्च मंत्रीपदीय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विभाग अध्यक्षों के बीच समन्वय कार्य</li> <li>• बैठकों की व्यवस्था और निदेशक के कैलेंडर का प्रबंधन</li> <li>• पत्र और अन्य दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना</li> <li>• अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा को संभालने के लिए</li> <li>• निदेशक के लिए फोन और ईमेल पत्राचार</li> <li>• सभी बैठकों के लिए भाग लेने और मिनट लेने के लिए</li> <li>• एमएस कार्यालय में निदेशक की सहायता</li> <li>• सामान्य कार्यालय सहायता या सहायता प्रदान करना</li> <li>• निदेशक द्वारा दी गई किसी भी अतिरिक्त जिम्मेदारी पर समर्थन</li> </ul>
38.	वर्ग ख	वरिष्ठ निजी सहायक	संवर्ग -3 उच्च मंत्रीपदीय	
39.	वर्ग ख	निजी सचिव	संवर्ग -3 उच्च मंत्रीपदीय	
40.	वर्ग ग	कार्यालय परिचारक	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संस्थान की आवश्यकता के अनुसार अनुभाग अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विभागीय कर्मचारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित कोई कार्य।</li> </ul>
41.	वर्ग ग	वरिष्ठ कार्यालय परिचारक	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
42.	वर्ग ग	कार्यालय परिचारक एस.जी-II	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
43.	वर्ग ग	कार्यालय परिचारक एस.जी-I	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
44.	वर्ग ग	प्रयोगशाला परिचारक	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
45.	वर्ग ग	वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचारक	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
46.	वर्ग ग	प्रयोगशाला परिचारक एस.जी-II	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
47.	वर्ग ग	प्रयोगशाला परिचारक एस.जी-I	संवर्ग -1 समर्थन संवर्ग	
48.	वर्ग ख	सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा अनुभाग	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• उसे नियंत्रण की निगरानी करनी होती है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सुरक्षा कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है।</li> <li>• कॉलेज एस्टेट की संपत्ति की रखवाली करना।</li> <li>• उन्हें कॉलेज परिसर में किसी भी अप्रिय घटना का संज्ञान लेना होगा जिससे अनुशासनहीनता और उपद्रव हो रहा है।</li> <li>• उसे दिन और रात भर सतर्क रहने की आवश्यकता है।</li> <li>• निदेशक/कुलसचिव द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्य।</li> </ul>

**7 वें सी.पी.सी के अनुसार एन.आई.टी श्रीनगर में कर्मचारियों की वेतन संरचना**

क्र. सं.	पद	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर
1.	निदेशक	स्तर 17
2.	कुलसचिव	स्तर 14
3.	प्रोफेसर	स्तर 14 स्तर 14A
4.	एसोसिएट प्रोफेसर	स्तर 13A1 स्तर 13A2
5.	सहायक प्रोफेसर	स्तर 10 स्तर 12 स्तर 13A1
6.	उप कुलसचिव	स्तर 12
7.	सहायक कुलसचिव	स्तर 10
8.	पुस्तकालय अध्यक्ष	स्तर 14
9.	उप पुस्तकालय अध्यक्ष	स्तर 12
10.	सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	स्तर 10
11.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी / तकनीकी अधिकारी	स्तर 12
12.	वैज्ञानिक अधिकारी	स्तर 10
13.	प्रधान एसएस अधिकारी	स्तर 14
14.	वरिष्ठ छात्र गतिविधि और खेल ( एस.ए.एस ) अधिकारी	स्तर 12
15.	छात्र गतिविधि और खेल ( एस.ए.एस ) अधिकारी	स्तर 10
16.	अधीक्षण अभियंता	स्तर 13
17.	कार्यपालक अभियंता	स्तर 11
18.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	स्तर 11
19.	चिकित्सा अधिकारी	स्तर 10
20.	कनिष्ठ सहायक	स्तर 3
21.	वरिष्ठ सहायक	स्तर 4
22.	सहायक (सिलेक्शन ग्रेड-II)	स्तर 5
23.	सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -I)	स्तर 6
24.	आशुलिपिक	स्तर 4
25.	वरिष्ठ आशुलिपिक	स्तर 5
26.	आशुलिपिक SG-II	स्तर 6
27.	आशुलिपिक SG-I	स्तर 7
28.	तकनीकी कारीगर , प्रयोगशाला सहायक, कार्य सहायक	स्तर 3
29.	वरिष्ठ तकनीकी कारीगर, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कार्य सहायक	स्तर 4
30.	तकनीकी कारीगर ( सिलेक्शन ग्रेड -II), प्रयोगशाला सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -II), कार्य सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -II)	स्तर 5
31.	तकनीकी कारीगर ( सिलेक्शन ग्रेड -I), प्रयोगशाला सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -I), कार्य सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -I)	स्तर 6
32.	अधीक्षक	स्तर 6
33.	वरिष्ठ अधीक्षक	स्तर 7
34.	अधीक्षक ( सिलेक्शन ग्रेड -II)	स्तर 8
35.	अधीक्षक ( सिलेक्शन ग्रेड -I)	स्तर 9
36.	निजी सहायक	स्तर 6
37.	वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक	स्तर 7
38.	निजी सचिव	स्तर 8
39.	तकनीकी सहायक	स्तर 6
40.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	स्तर 7
41.	तकनीकी सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -II)	स्तर 8
42.	तकनीकी सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -I)	स्तर 9
43.	कनिष्ठ अभियंता/ एस.ए.एस सहायक/ & सूचना सहायक	स्तर 6
44.	सहायक अभियंता / वरिष्ठ एस.ए.एस सहायक /वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	स्तर 7
45.	सहायक अभियंता / एस.ए.एस सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -II)/ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -II)	स्तर 8
46.	सहायक अभियंता / एस.ए.एस सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -I)/ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक ( सिलेक्शन ग्रेड -I)	स्तर 9
47.	औषधकारक	स्तर 5

48.	औषधकारक (सिलेक्शन ग्रेड -II)	स्तर 7
49.	औषधकारक (सिलेक्शन ग्रेड -I)	स्तर 8
50.	बहु कार्यण (परिचारक/ चालक/ माली आदि)	स्तर 1

यहां "स्तर" का अर्थ है केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों, 2016 के तहत अधिसूचित अनुसूची के भाग एक में निर्दिष्ट पे मैट्रिक्स में मौजूदा पे बैंड और ग्रेड पे या स्केल के अनुरूप स्तर।

संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

निदेशक कार्यालय					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	निदेशक	प्रो. ए. रविंदर नाथ	2101 एल: 2422032 फैक्स: 2420475 निवास: 3501 एल: 2427426		director@nitsri.ac.in
2.	ए.आर. (निदेशक कार्यालय)	श्री मोहम्मद हाज़िक	2102	9906655934	hazik@nitsri.ac.in
3.	ए.आर. (निदेशक कार्यालय/निदेशक के विशेष सचिव)	श्री शाहिद हमीद नजार	2103	9858701701	shahid.hamid@nitsri.ac.in
4.	तकनीकी सहायक	श्री खालिद जिब्रान	2103	9682618485	khalidj_ta@nitsri.ac.in
5.	निदेशक कार्यालय के लिए आशुलिपिक	श्री मोहम्मद आसिफ मलिक	2103	7006920212	mohammadaasifmalik94@nitsri.ac.in
6.	समिति कक्ष		2104		

निदेशक कार्यालय

कुलसचिव कार्यालय					
1.	कुलसचिव	प्रो. अतीकुर रहमान	2105/ 2421347	8082169335	registrar@nitsri.ac.in
2.	आर.ओ के कनिष्ठ सहायक	श्री आदिल रसूल भट्ट	2105	9622222125	aadilrasool@nitsri.ac.in
3.	आर.ओ के कनिष्ठ सहायक	श्री तवहीद हुसैन नजार	2105	7006214389	tawheed@nitsri.ac.in
4.	डी.आर. (प्रशासन)	श्री फैसल इरशाद गनाई	2120	9906693991	faisal.ganai@nitsri.ac.in
5.	डी.आर. (लेखा)	श्रीमती नाज़िया नज़ीर	2106	9419977678	nazia.qadri@nitsri.ac.in
6.	ए.आर. (डी.ओ./लीगल)	श्री मोहम्मद हाज़िक	2102	9906655934	hazik@nitsri.ac.in
7.	ए.आर. ( डी.ओ./निदेशक के विशेष सचिव)	श्री शाहिद हमीद नजार	2103	9858701701	shahid.hamid@nitsri.ac.in
8.	ए.आर. (लेखा)	श्री मुबाशिर अहमद वानी	2144	9858498580	mubashir.wani@nitsri.ac.in
9.	ए.आर. (प्रशासन)	श्री मोहम्मद इकबाल डार	2132	9596032446	miqbaldar@nitsri.ac.in
10.	ए.आर. (शैक्षणिक)	श्री शेख फ़ैयाज़ अहमद	2121	9419058172	assistantregistraracademic@nitsri.ac.in
11.	ए.आर. (एस एंड पी)	श्री हकीम मोहम्मद अमीन	2114	9419018862	hakimohammadamin@gmail.com
12.	ओ/सी केंद्रीय खरीद इकाई	डॉ शेख शाहिद सलीम	2107	9622481576	shahid@nitsri.ac.in

कुलसचिव कार्यालय

प्रशासनिक अनुभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/अनुभाग	नाम/पद	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
<b>कार्मिक विभाग</b>					personnel.department@nitsri.ac.in
1.	डी.आर. (प्रशासन)	श्री फैसल इरशाद गनाई	2120	9906693991	faisal.ganai@nitsri.ac.in
2.					
3.	ए.आर. (प्रशासन)	श्री मोहम्मद इकबाल डार	2132	9596032446	miqbaldar@nitsri.ac.in

प्रशासनिक अनुभाग

प्रशासनिक अनुभाग

4.	संकाय मामलों के लिए	श्री हबीबुल्लाह राथर वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2112	9622415359	ratherhabibullah@gmail.com
5.		श्री फैसल शौकत शाह कनिष्ठ सहायक	2112	7006555243	shahfaisal@nitsri.ac.in
6.		श्री नईम ज़हूर कनिष्ठ सहायक	2112	8493008900	nayeemzahoor@nitsri.ac.in
7.	गैर-संकाय मामलों के लिए	श्रीमती निगहत शाहीन अधीक्षक	2109	8899128174	
8.		श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक	2112	9906314458	naresh@nitsri.ac.in
9.		श्री अकबर अली कनिष्ठ सहायक	2112	7006506940	akbarali@nitsri.ac.in
10.	आउटसोर्स मामलों के लिए	श्री सुहेल हसन (ओ.एस)	2113	7889711963	hassan.sohail1303@gmail.com

शैक्षणिक मामले

शैक्षणिक मामले

1.	डीन अकेडमिक अफेयर्स	प्रो. मोहम्मद शफ़ी मीर	2606	9469425113	Deanacadaffairs@nitsri.ac.in
2.	एसोसिएट डीन , फ़ॉरेन एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज	डॉ. मुश्ताक़ अगमद राथर	3106	8803970037	adfse@nitsri.ac.in
3.	एसोसिएट डीन , अकेडमिक अफेयर्स	डॉ. रणजीत कुमार राउत	2813	8895125180	associatedeanacademics@nitsri.ac.in
4.	एसोसिएट संकायाध्यक्ष, परीक्षा	डॉ. मोहम्मद मुर्सलीन	2815	9697985483	assocdeanexams@nitsri.ac.in
5.	ए.आर. (शैक्षणिक)	श्री शेख़ फ़ैयाज़ अहमद	2121	9419058172	assistantregistraracademic@nitsri.ac.in
6.	डीन ए.ए के निजी सचिव	श्री एम्. मुज़फ़्फ़र ए. वानी अधीक्षक एसजी-II	2112	7051588148	
7.	शैक्षणिक	श्रीमती नीलोफर जान	2119	9906924097	neelofar@nitsri.ac.in
8.		श्रीमती शाहीन अली	2119	9906503327	
9.		श्रीमती महजबीन	2119	7006429958	
10.		श्री मोहम्मद अबास काठ	2119		
11.	परीक्षा	श्रीमती फोज़िया अली	2115	9469674319	coe@nitsri.ac.in
12.		श्री तनवीर हुसैन भट्ट	2115	9622892754	
13.	पीएच.डी. / (छात्रवृत्ति)	श्री इम्तियाज़ हुसैन	2142	9086666749	
14.		श्री मुख्तार अहमद डार	2142	7006715512	
15.	डीलिंग असिस्टेंट (शैक्षिक सत्यापन)	श्री जुनैद अहमद (ओ.एस)	2115	9797234599	educationverification@nitsri.ac.in

वित्त एवं लेखा

वित्त एवं लेखा

					accounts@nitsri.ac.in
1.	उप-कुलसचिव (लेखा)	श्रीमती नाज़िया नज़ीर	2106	9419977678	nazia.qadri@nitsri.ac.in
2.	सहायक कुलसचिव (लेखा)	श्री मुबशिर अहमद वानी	2144	9858498580	mubashir.wani@nitsri.ac.in
3.		श्री मोहम्मद अशरफ़ सोफी वरिष्ठ अधीक्षक	2122   2123	9906460344	

4.		श्री रियाज़ अहमद राथर		9541221053	
5.		श्री ज़ैसर फारूक		7006677466	zaiser_ja@nitsri.ac.in
6.		श्री आक़िब जान		9596150286	aaqibjan@nitsri.ac.in
7.		श्री शाहनवाज़ अज़ीज़		7889655022	shahnawazaziz@nitsri.ac.in
8.		श्री मुशर्रफ़ फारूक		8491040582	mushraf_ja@nitsri.ac.in
1.	<b>आरटीआई/शिकायतें/केंद्रीय प्रेषण/संस्थान टिकटिंग</b>	श्री मोहम्मद इकबाल डार ए.आर (प्रशासन)/पीआईओ	2132	9596032446	miqbaldar@nitsri.ac.in
2.		श्री औवैस नज़ीर		7889987286	nazirovais@nitsri.ac.in
1.	<b>लीगल</b>	श्री मोहम्मद हाज़िक सहायक कुलसचिव डी.ओ/लीगल	2102	9906655934	hazik@nitsri.ac.in
2.		श्री बसारात बशीर		8491068600	basarat_ja@nitsri.ac.in
1.	<b>केंद्रीय खरीद इकाई</b>	डॉ. शेख शाहिद सलीम ओ/सी सीपीयू	2107	9622481576	shahid@nitsri.ac.in
2.		श्री फ़याज़ अहमद चन	2107	9906895670	fayazrec@gmail.com
3.		श्री मुदस्सिर अहमद अहंगर	2107	7006089593	mudasir_qasir@nitsri.ac.in
4.		श्री तौसीफ़ जीलानी	2818	9797705044	tauseef@nitsri.ac.in
5.	<b>स्टेशनरी एवं मुद्रण</b>	श्री हकीम मोहम्मद अमीन एआर (एस एंड पी)	2114	9419018862	hakimohammadamin@gmail.com
6.		श्री अब्दुल वहीद गुजरी	2140	9906523929	Abdulwahid5602@gmail.com
	<b>राजभाषा सेल</b>				
1.	हिंदी अधिकारी प्रभारी	डॉ. राजेश प्रसाद शुक्ल		7987485662	rpshukla@nitsri.ac.in
2.	सदस्य	श्री मोहम्मद हाज़िक	2102	9906655934	hazik@nitsri.ac.in
3.	सदस्य	श्री मोहम्मद इकबाल डार	2132	9596032446	miqbaldar@nitsri.ac.in
4.	सदस्य	डॉ. सबज़ार अहमद (ओएस)	2108	9596193687	sabzargani@gmail.com
	<b>बोर्ड अनुभाग ईगवर्नेंस</b>				egovernance@nitsri.ac.in
1.	समन्वयक	डॉ. स्पर्श शर्मा		7006232933	sparsh.sharma@nitsri.ac.in
2.	तकनीकी सहायक	सुश्री इंशा शफ़ी		7006752609	inshas_ta@nitsri.ac.in
	<b>जनसंपर्क</b>	श्री मोहम्मद इरफ़ान (ओ.एस)		6006423237	irfan.pro@nitsri.ac.in

डीन एवं सह डीन का कार्यालय					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पदनाम	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	डीन संकाय कल्याण	प्रो. गुलाम अशरफुल हरमैन	2804	9419018804	deanfaculty@nitsri.net
2.	डीन शोध एवं परामर्श	प्रो. रूही नाज़ मीर		7889770929	dean.research@nitsri.ac.in

डीन  
और सह डीन

3.	डीन योजना एवं विकास	डॉ. यशवंत मेहता	2904	9419056500	dean.planing@nitsri.ac.in
4.	डीन छात्र कल्याण	प्रो. अब्दुल लिमन	2304	9419536775	aliman@nitsri.ac.in
5.	डीन अकेडमिक अफेयर्स	प्रो. मोहम्मद शफ़ी मीर	2606	9469425113	DeanAcadAffairs@nitsri.ac.in
6.	डीन पूर्व छात्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले	प्रो. नजीर ए शेख	2818	9797985602	deanaia@nitsri.ac.in
7.	एसोसिएट डीन, परीक्षा	डॉ. मोहम्मद मुर्सलीन	2815	9697985483	assocdeanexams@nitsri.ac.in
8.	एसोसिएट डीन, फॉरेन एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज	डॉ. मुश्ताक अहमद राथर	3106	8803970037	adfse@nitsri.ac.in
9.	एसोसिएट डीन, पी एंड डी	डॉ. फ़याज़ अहमद सोफी	2236	9797205130	sofifayaz@nitsri.ac.in
10.	एसोसिएट डीन, अकेडमिक अफेयर्स	डॉ. रणजीत कुमार राउत		8895125180	associatedeanacademics@nitsri.ac.in
11.	एसोसिएट डीन, आर एंड सी	डॉ. गुलाम रसूल बेग	2709	9906577743	grbegh@nitsri.ac.in
12.	एसोसिएट डीन, छात्र कल्याण	डॉ. तनवीर रसूल डार	3104	9419013120 7006899026	tanvir@nitsri.ac.in

रासायनिक  
अभियांत्रिकी  
विभाग

रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	प्रो. मोहम्मद नूर सलाम खान	3101	9906884364	hodchemical@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्री फैजान (ओएस)	2102	7889460352	
3.	प्रोफ़ेसर	प्रो. मोहम्मद नूर सलाम खान	3101	9906884364	dkhan3363@gmail.com
4.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	डॉ. फैसल कयूम मीर		9149707313	mirfasil@nitsri.ac.in
5.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	डॉ. मुश्ताक अहमद राथर	3106	8803970037	marather@nitsri.ac.in
6.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. तनवीर रसूल	3104	9419013120 7006899026	tanveer@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. मलिक परवेज़	3105	9797792168	pkash123@yahoo.com
8.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. बी. कृष्णा श्रीहरि		6005143233	sriharibonasi@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. कुरेला स्वामी		6305824790	kurellaswamy@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. शशिकान्त कुमार		8986948677	shashikantkumar@nitsri.ac.in
11.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. फातिमा जालिद		9990795522	fatima@nitsri.ac.in
12.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. अस्मा इक़बाल		6006233204	asma.iqbal@nitsri.ac.in
13.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. ब्रजेश कुमार		9410292260	brajesh@nitsri.ac.in
14.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. मोहम्मद मोइज़ खान		7506831990	moiz@nitsri.ac.in
15.	तकनीकी सहायक	श्री इशफ़ाक अहमद नजार		7006687158	ishfaqN_ta@nitsri.ac.in

रासायन विज्ञान विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	प्रो. हामिदा-तुन-निसा चिश्ती	2505	7006114565	hodchemistry@nitsri.ac.in

रसायन विज्ञान विभाग

2.	विभागीय कार्यालय	श्री फिरदौस अहमद रोंगा	2502	7006108824	
3.	प्रोफ़ेसर	प्रो. तबस्सुम आरा	2504	8825092581	tabassum@nitsri.ac.in
4.	प्रोफ़ेसर	प्रो. कौसर मजीद	2503	9469804701 7006473015	kowsar@nitsri.ac.in
5.	प्रोफ़ेसर	प्रो. शकील अहमद शाह	2502	9622795570	shakeel@nitsri.ac.in
6.	प्रोफ़ेसर	प्रो. जावेद अहमद बांडे	2508	9906626635	jauid@nitsri.ac.in
7.	प्रोफ़ेसर	प्रो. हामिदा-तुन-निसा चिश्ती	2505	7006114565	hamida@nitsri.ac.in
8.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. मोहम्मद असलम		9541026327	maslam@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. मक्तेदार श्रीकांत शिवाजी	2506	9978500944	shrikant@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. रवि कुमार	2509	9419211688	ravikumar@nitsri.ac.in
11.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. जिग्नेशकुमार वी रोहित	2511	9909500225	jjgnesh@nitsri.ac.in

जानपद  
अभियांत्रिकी  
विभाग

जानपद अभियांत्रिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	प्रो. जावीद अहमद भट्ट	2207	9419520381	hodcivil@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्री कुमैल हुसैन जाफ़री (ओएस)	2202	9070838383	kumail.jaffari@nitsri.ac.in
3.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अब्दुल कयूम डार	2208	9419001914	aqayoom@nitsri.ac.in
4.	प्रोफ़ेसर	प्रो. मंज़ूर ए अहंगर	2220	9419404659	manzoorahangar@nitsri.ac.in
5.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अब्दुल कयूम डार	2208	9419001914	aqayoom@nitsri.ac.in
6.	प्रोफ़ेसर	प्रो. मोहम्मद शफ़ी मीर	2232	9469425113	shafi@nitsri.ac.in
7.	प्रोफ़ेसर	प्रो. बशीर ए. मीर	2216	9419002500	p7mir@nitsri.ac.in
8.	प्रोफ़ेसर	प्रो. शगुफ़ता रसूल शाह	2212	9797795597	shagoofa2002@yahoo.com
9.	प्रोफ़ेसर	प्रो. मंज़ूर अहमद तंत्रि	2225	9419428095	matantray@nitsri.ac.in
10.	प्रोफ़ेसर	प्रो. एस. केसर बुखारी	2213	8716836789	kaiserbukhari@nitsri.ac.in
11.	प्रोफ़ेसर	प्रो. एम. यूसुफ़ शाह	2231	9622584841	yousuf@nitsri.ac.in
12.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	एर. फ़ैयाज़ अहमद मीर	2205	9906523922	fayaz@nitsri.ac.in
13.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	एर. दानिश अहमद	2219	9906569193	danish@nitsri.ac.in
14.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	एर. ऐजाज़ ए मसूदी	2214	9906577830	aijaz@nitsri.ac.in
15.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	श्रीमती रूबीना राशिद मीर	2204	9906443164	rubina@nitsri.ac.in
16.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. मुनीर अहमद नायक		9993815818	munir.ahmad@nitsri.ac.in
17.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. शकील ए वसीम		9758461370	shakeelahmad@nitsri.ac.in
18.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. फ़ैयाज़ अहमद सोफी	2236	9797205130	sofifayaz@nitsri.ac.in
19.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. विवेक		8439253267	vivek@nitsri.ac.in
20.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. अब्दुल्ला अहमद		8439253267	abdullah.ahmad@nitsri.ac.in
21.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. ख़ालिद मुज़म्मिल गनी		7006348023	khalid.m@nitsri.ac.in
22.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. जितेंद्र गुर्जर		8082581295	jitendra.gurjar@nitsri.ac.in
23.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. माजिद हुसैन		9998547248	majid.h@nitsri.ac.in
24.	सहायक प्रोफ़ेसर	डॉ. परमेश्वर		9149566751	parameshwar.n@nitsri.ac.in

जानपद  
अभियांत्रिकी  
विभाग

25.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. राजेश प्रसाद शुक्ल		7987485662	rpshukla@nitsri.ac.in
26.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. दसारी कार्तिक		9966415606	dasari.karthik@nitsri.ac.in
27.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. रितेश शंकरराव इंगले		9881888686	ritesh.ingale@nitsri.ac.in
28.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. सगदेवन आर.		9103011414	sagadevan@nitsri.ac.in
29.	शिक्षार्थी अध्यापक	डॉ.संदीप सामंतराय		9583322304	sandeep@nitsri.ac.in
30.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. जनानी एल.		9446915902	janani@nitsri.ac.in
31.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. वल्लीबोड्डा वेंकटेश्वरलु		7006424056	venki@nitsri.ac.in
32.	सहायक प्रोफेसर	सुश्री फ़लक ज़हूर		9018945366	falak@nitsri.ac.in

संगणक विज्ञान एवं  
अभियांत्रिकी विभाग

कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. मोहम्मद अहसान चिश्ती	3739	9419013039	hodcse@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	सुश्री रवीसा अख्तर	3738	7006820273	ramesa_ta@nitsri.ac.in
3.	प्रोफेसर (एचएजी)	प्रो. रूही नाज़ मीर	3737	9419035358 7006687815	naaz310@nitsri.ac.in
4.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. मोहम्मद अहसान चिश्ती	3739	9419013039	ahsan@nitsri.ac.in
5.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. शाइमा कुरेशी	3741	9419024540	shaima@nitsri.ac.in
6.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. रंजीत कुमार राउत		8895125180	ranjeetkumarrout@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. स्पर्श शर्मा		7006232933	sparsh.sharma@nitsri.ac.in
8.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. वेनिंगस्टन के.		9790278826	veningstonk@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. प्रमोद कुमार यादव		9411407432	pramod.kumar@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. तौसीफ अय्यूब शेख		9622513326	tawseef.shaikh@nitsri.ac.in
11.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. लावण्या माधुरी बोल्लिपो		9989685689	lavanyasandeep@gmail.com

विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. श्री जावेद इकबाल	2607	9419984644	hodee@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्रीमती सपना रैना	2602	7889333705	
3.	प्रोफ़ेसर	प्रो. ऐजाज़ अहमद ज़रगर	2604/ 2102155	9419015843	aijaz54@nitsri.ac.in
4.	प्रोफ़ेसर (एचएजी)	प्रो. मुफ़्ती मिराज-उद-दीन	2605	9419523894	mdmufti@nitsri.ac.in
5.	प्रोफ़ेसर	प्रो. शमीम ए लोन	2606	9419501253	salone@nitsri.ac.in
6.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अब्दुल हामिद भट्ट	2614	9419077713	bhatdee@nitsri.ac.in
7.	प्रोफ़ेसर	प्रो. मोहम्मद आबिद बज़ाज़	2615	6005103740	abid@nitsri.ac.in
8.	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	डॉ. शेख जावेद इकबाल	2607	9419984644	jvd@nitsri.ac.in

विद्युतीय  
अभियांत्रिकी  
विभाग

9.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. जगताप कुशल एम राव		6005352412	Jagtapkushal@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. नीरज गुप्ता		7087434648	neerajgupta@nitsri.ac.in
11.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. इखलाक हुसैन		8588831924	ikhlaq@nitsri.ac.in
12.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. असददुर रहमान		9957497127	asadur@nitsri.ac.in
13.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. फरहाद इलाही बख्श		9045300569	farhad@nitsri.ac.in
14.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. शोएब हुसैन		9419023511	shoeb.hussain@nitsri.ac.in
15.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. हरीश माइनेनी		8333976309	hareesh.myneni@nitsri.ac.in
16.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. पंकज कुमार		8290297038	pankaj@nitsri.ac.in
17.	तकनीकी सहायक	श्री जुबैर यूसुफ खान		7006777851	zubair@nitsri.ac.in

इलेक्ट्रॉनिकस  
एवं संचार  
विभाग

इलेक्ट्रॉनिकस एवं संचार विभाग					
क्र. संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. गौसिया क़ाज़ी	2708	9419015436	hodece@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्री मोहम्मद सिबगत उल्लाह		8825077920	sibgatullah_ta@nitsri.ac.in
3.	प्रोफेसर (एचएजी)	प्रो. ऐजाज़ हुसैन मीर	2705	9419010409	ahmir@nitsri.ac.in
4.	प्रोफेसर	प्रो. नजीब उद-दीन	2706	9906666033	najeeb@nitsri.ac.in
5.	एसोसिएट प्रोफेसर	ए. एजाज़ ए मीर	2707	9419091127	aamir@nitsri.ac.in
6.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. गौसिया क़ाज़ी	2708	9419015436	gausia.qazi@nitsri.ac.in
7.	एसोसिएट प्रोफेसर	ए. अब्दुल गफ्फार मीर	2711	9858351776	agaffar@nitsri.ac.in
8.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. जी. रसूल बेघ	2709	9906577743	grbegh@nitsri.ac.in
9.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. फरीदा खुशीद	2712	9906540293	fklone@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. शेख आमिर अहसन		6005059743	sheikhaamirahsan@nitsri.ac.in
11.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. शाहिद मेहराज शाह		9535145886	shahidshah@nitsri.ac.in
12.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. ओंकार सिंह		9419279382	omkar.parihar@nitsri.ac.in
13.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अमनदीप सिंह रेहाल		7508250907	amansingh@nitsri.ac.in
14.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. बुरहान कुशीद		7006762059	burhan@nitsri.ac.in
15.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. ब्रजेंद्र सिंह सेंगर		9179615146	brajendra.singh@nitsri.ac.in
16.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अशोक कुमार		8102350942	ashok.kumar@nitsri.ac.in
17.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अमित कुमार		8010377545	amit.kumar@nitsri.ac.in
18.	तकनीकी सहायक	श्री मोहम्मद सिबगत उल्लाह		8825077920	sibgatullah_ta@nitsri.ac.in

मानविकी,  
सामाजिक विज्ञान,

मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. जया श्रीवास्तव	3301	7006937535	hodhss@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्री मुदासिर शफ़ी	3302	7006721548	mudasirs_ta@nitsri.ac.in
3.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. ताहिर अहमद वानी	3303	9070548823	tahirwani@nitsri.ac.in
4.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. नासिर फ़रीद भट्ट		9018123458	nasir.faried@nitsri.ac.in
5.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. सुमैरा जान		9971043801	sumairajan@nitsri.ac.in

और प्रबंधन विभाग

6.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. नुफ़ाज़िल अल्ताफ़		9086666846	nufazil.ahangar@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. मोहम्मद रफीक तेली		9797177846	m.rafiq@nitsri.ac.in
8.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अजाज-उल-इस्लाम		9419070276	ajazul.islam@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. शाहनवाज		7006736360	shahnawaz.ahmed@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अनिल सिंगल		9289206212	anil.singhal@nitsri.ac.in
11.	तकनीकी सहायक	श्री मुदासिर शफ़ी		7006721548	mudasirs_ta@nitsri.ac.in

सूचना  
प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. जानिबुल बशीर	3740	8825099229	hodit@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्री आकिल मुश्ताक (ओएस)	3744	7006395831	
3.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. शब्बीर अहमद सोफी	3740	9419009971	shabir@nitsri.ac.in
4.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. जानिबुल बशीर	3740	8825099229	janibbashir@nitsri.ac.in
5.	सहायक प्रोफेसर	श्रीमती अरूज़ निसार		9018853344	arooj@nitsri.ac.in
6.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. इकरा अल्ताफ गिलानी		7889871231	iqraaltaf@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. प्रबल वर्मा		9419223663	prabal.verma@nitsri.ac.in

पुस्तकालय

पुस्तकालय					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	अध्यक्ष पुस्तकालय समिति	डॉ. गौसिया क़ाज़ी	2708	9419015436	chairmanlibrarycommitee@nitsri.ac.in
2.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	श्रीमती अस्मत अली	2127	9797847219	deputylibrarian@nitsri.ac.in
3.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	श्री शौकत अहमद वानी		9149507396	assistantlibrarian@nitsri.ac.in
4.	केंद्रीय पुस्तकालय कार्यालय	श्रीमती दिलशादा अख़्तर	2126	9796564599	office_library@nitsri.ac.in
5.	तकनीकी सहायक	श्री यूसुफ़ राथर	2137	9797060578	

गणित  
विभाग

गणित विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. जमरूदा जबीन	2303	9622355003	hodmaths@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	सुश्री शाज़िया शफ़ी	2302	6006612639	shaziahs_ta@nitsri.ac.in
3.	प्रोफेसर	प्रो. अब्दुल लिमान	2304	9419536775	aliman@nitsri.ac.in
4.	प्रोफेसर	प्रो. नियाज़ ए शेख	2301	9796123426	neyaz@nitsri.ac.in
5.	प्रोफेसर	प्रो. हकीम तनवीर जलाल		9419032480	tjalal@nitsri.ac.in
6.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. जमरूदा जबीन		9622355003	zjabeen19@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. मेहराज अहमद लोन		7780830973	mehrajlon@nitsri.ac.in
8.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. उज्वल सुरेश आर. वारभे	2306	8087794291	ujwalwarbhe@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. रमीज़ राजा		7006898985	rameeznaqash@nitsri.ac.in

10.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. इदरीस कासिम		6005731633	idreesf3@nitsri.ac.in
11.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. ओवैस अहमद		7006981752	siawoahmad@nitsri.ac.in
12.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अतेंद्र कुमार		9805671165	atendra@nitsri.ac.in
13.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. बिलाल अहमद वानी		8825076250	bilalwani@nitsri.ac.in
14.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. सलीम यूसुफ		7006151904	saleemyousuf@nitsri.ac.in
15.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. सिवा रामा कृष्ण सी.		7708193108	sivaramakrishnan@nitsri.ac.in
16.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. मुश्ताक अहमद भट्ट	2303	9419032480	tjalal@nitsri.ac.in
17.	तकनीकी सहायक	सुश्री शाज़िया शफ़ी	2302	6006612639	shaziahs_ta@nitsri.ac.in

यांत्रिक  
अभियांत्रिकी  
विभाग

यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	प्रो. अदनान कयूम	2803   2817	9419016328 7006587715	hodmech@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	सुश्री इकरा	2802	9682692177	khanigra@nitsri.ac.in
3.	प्रोफेसर (एच.ए.जी)	प्रो. मोहम्मद फारूक वानी		8803824243	mfwani@nitsri.ac.in
4.	प्रोफेसर (एच.ए.जी)	प्रो. जी.एच. अशरफुल हरमैन	2804	9419018804	gharmain@nitsri.ac.in
5.	प्रोफेसर	प्रो. नज़ीर ए. शेख	2818	9797985602	nazir@nitsri.ac.in
6.	प्रोफेसर	प्रो. अदनान कयूम	2817	9419016328 7006587715	adnan@nitsri.ac.in
7.	प्रोफेसर	प्रो. एम. मारूफ वानी	2809	9906674366	maroufwani@nitsri.ac.in
8.	प्रोफेसर	प्रो. बाबर अहमद	2801	9149413497	babar@nitsri.ac.in
9.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. मोहम्मद हनीफ़	2805	7006161837 9906763424	hanief@nitsri.ac.in
10.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. एम. शफ़ी चारू	2813	9797793483	shaficharoo123@nitsri.ac.in
11.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. साद परवेज़	2810	9797757234	saadparvez@nitsri.ac.in
12.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. शेख शाहिद सलीम	2806	9622481576	shahid@nitsri.ac.in
13.	एसोसिएट प्रोफेसर	डॉ. मोहम्मद मुर्सलीन	2815	9697985483	mursaleen@nitsri.ac.in
14.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. मुकुंद दत्त शर्मा		9882241895	mukund.sharma@nitsri.ac.in
15.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. नूर ज़मान खान		9891674435 8920418554	noorzaman@nitsri.ac.in
16.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. एम. मोहसिन खान		6265750295	mohsinkhan@nitsri.ac.in
17.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. हरवीर एस पाली		8076729852	hspali@nitsri.ac.in
18.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अभिजीत डे		8899778875	abhijitdey@nitsri.ac.in
19.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. मनोज कुमार		8899778876	manojkumar@nitsri.ac.in
20.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. संदीप राठी		8076036082	sandeep.rathe@nitsri.ac.in
21.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. अज़हर जमील		8715028970	jameelazher@nitsri.ac.in

22.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. दीपक कुमार नायक		9776964252	deepak.kumar@nitsri.ac.in
23.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. दिनेश कुमार आर		9865138376	rdinesh@nitsri.ac.in
24.	सहायक प्रोफेसर	श्री वेद प्रकाश शर्मा		7292003792	vedprakash@nitsri.ac.in

धातुकी एवं  
पदार्थ  
अभियांत्रिकी  
विभाग

धातुकी एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	प्रो. अतीकुर रहमान	2901	8082169335	hodmmed@nitsri.ac.in
2.	विभागीय कार्यालय	श्री परवेज़ अहमद	2902	9797994052	
3.	प्रोफेसर	प्रो. अतीकुर रहमान	2901	8082169335	atikurrhmn@nitsri.ac.in
4.	सह - प्राध्यापक	डॉ.यशवंत मेहता	2904	9419056500	ymehta@nitsri.ac.in
5.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. इरफ़ान समद वानी		8179340114	irfansamad@nitsri.ac.in
6.	सहायक प्रोफेसर	डॉ श्रीनिबाश मिश्र		6203587029	srinibash@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफेसर	डॉ.अंशुल गुप्ता		7523830157	anshul.gupta@nitsri.ac.in
8.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. प्रवन कुमार कटियार		7652029017	prvan.kumar@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. निकितिका कुन्दन		6006191446	nitika.kundan@nitsri.ac.in
10.	सहायक प्रोफेसर	सुश्री अरवी मुजप्फर		9596538854	aravi@nitsri.ac.in

भौतिकी  
विभाग

भौतिकी विभाग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	प्रो. मोहम्मद इकराम	2403	8717000375	hodphysics@nitsri.ac.in
2.	विभाग कार्यालय	श्री तसदुदुक अहमद मीर		9149619529	tasaduqm_ta@nitsri.ac.in
3.	प्रोफेसर	प्रो. मोहम्मद इकराम	2403	8717000375	ikram@nitsri.ac.in
4.	प्रोफेसर	डॉ. सीमिन रुबाब	2408	9419015637	rubab@nitsri.ac.in
5.	प्रोफेसर	प्रो. प्रिंस अहमद गनाई	2406	9596379055	princeganai@nitsri.ac.in
6.	प्रोफेसर	प्रो. मोहम्मद अशरफ शाह	2405	9419018195	shah@nitsri.ac.in
7.	सहायक प्रोफेसर	डॉ विजय कुमार		6005495506	vijaykumar@nitsri.ac.in
8.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. मोहम्मद जुबैर अंसारी		8882629888	mohdzubair@nitsri.ac.in
9.	सहायक प्रोफेसर	डॉ. हरकीरत सिंह		9797048025	harkirat@nitsri.ac.in
10.	तकनीकी सहायक	श्री तसादुक हुसैन मीर		9149619529	tasaduqm_ta@nitsri.ac.in

प्रशिक्षण एवं नियुक्ति विभाग

प्रशिक्षण एवं नियुक्ति विभाग					
क्र. संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	विभागाध्यक्ष	डॉ. शेख शाहिद सलीम	2130   2424809	9622481576	shahid@nitsri.ac.in
2.	सहयोगी टी एंड पी अधिकारी	डॉ. ताहिर अहमद वानी	3303	9070548823	tahirwani@nitsri.ac.in

3.	टी एंड पी कार्यालय	श्री नज़ीर अहमद	2131	7006111140	placements@nitsri.ac.in
----	--------------------	-----------------	------	------------	-------------------------

केंद्रीय  
अनुसंधान  
सुविधा  
केंद्र

केंद्र केंद्रीय अनुसंधान सुविधा केंद्र					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	अध्यक्ष	प्रो. एम. फारूक वानी	2109	8803824243	mfwani@nitsri.ac.in
2.	सदस्य	प्रो. अब्दुल कयूम डार	2141	9419001914	aqayoom@nitsri.ac.in
3.	सदस्य	प्रो. नजीब उद-दीन	2706	9906666033	najeeb@nitsri.ac.in
4.	सदस्य	डॉ. शकील अहमद शाह	2502	9622795570	shakeel@nitsri.ac.in
5.	सदस्य	प्रो. अतीकुर रहमान	2901	8082169335	atikurrhmn@nitsri.ac.in
6.	सदस्य	प्रो. मोहम्मद अशरफ शाह	2405	9419018195	shah@nitsri.ac.in
7.	सदस्य	डॉ. शेख शाहिद सलीम	2107	9622481576	shahid@nitsri.ac.in
8.	सदस्य	डॉ. मुश्ताक अहमद राथर	3106	8803970037	marather@nitsri.ac.in
9.	सदस्य	डॉ. मोहम्मद आबिद बज़ाज़	2615	6005103740	abid@nitsri.ac.in
10.	सदस्य	डॉ. विजय कुमार		6005495506	vijaykumar@nitsri.ac.in
11.	वैज्ञानिक तकनीकी अधिकारी	श्री मोहम्मद नदीम भट्ट		7051520078	nadeembhat@nitsri.ac.in

संगणक  
सेवा  
केंद्र

कंप्यूटर सेवा केंद्र					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	अध्यक्ष	डॉ. फरीदा खुर्शीद	2712	9906540293	fkhone@nitsri.ac.in
2.	वैज्ञानिक तकनीकी अधिकारी	श्री गुलाम मुस्तफा जरगर		9419027207	mustafa@nitsri.ac.in
3.	तकनीकी सहायक	श्री कलीम उल्लाह डार		9906481650	kaleem@nitsri.ac.in
4.	वेब प्रोग्रामर	श्री शब्बीर मुस्तफा		8899028328	mshabir@nitsri.ac.in

आई.आई.ई.डी  
केंद्र

नवाचार ऊष्मायन एवं उद्यमिता केंद्र					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	समन्वयक/संयोजक	प्रो. नजीब उद दीन	2706	9906666033	najeeb@nitsri.ac.in

एस.ए.एस  
केंद्र

छात्र गतिविधि एवं खेल केंद्र					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	समन्वयक - एस.ए.एस	डॉ. श्रीनिवाश मिश्रा		6203587029	srinibash@nitsri.ac.in
2.	एस.ए.एस अधिकारी	सुश्री कौसर अली मीर	3307	7889348991	kowsaralimir@nitsri.ac.in
3.	एस.ए.एस सहायक	श्री सोहेल अहमद		7006022322	sohail@nitsri.ac.in

डब्लू.आर.एम.सी

जल संसाधन प्रबंधन केंद्र					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	अध्यक्ष डब्लू.आर.एम.सी	प्रो. शगुफ्ता रसूल	2212	9797795597	shagoofa2002@yahoo.com

केंद्रीय  
कार्यशाला

अन्य कार्यालय केंद्रीय कार्यशाला					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	प्रभारी कार्यशाला	डॉ. मोहम्मद हनीफ	3201	7006161837 9906763424	hanief@nitsri.ac.in
2.	सी.डब्ल्यू भंडारपाल	श्री लतीफ़ अहमद गनाई	3203	9149922458	
3.	तकनीकी सहायक	श्री रणजीत प्रजापति		9462408654	
दुकानें					
4.	बढ़ईगीरी और पैटर्निंग	श्री नूर मोहम्मद अहंगर		9906826034	
5.	फाउंड्री दुकान	श्री रणजीत प्रजापति		9462408654	
6.	मशीन की दुकान	श्री फ़िरदौस अहमद वानी		7051827164	
7.	वैल्टिंग की दुकान	श्री ज़हूर अहमद		9149928824	
परिवहन अनुभाग					
8.	वाहनचालक	श्री मोहम्मद अयूब ज़ोजी		9419859539	
9.	वाहनचालक	श्री रियाज़ अहमद		9149525894	
10.	वाहनचालक	श्री शौकत अहमद शाह		9541271985	
11.	वाहनचालक	श्री शीराज़ अहमद		7780839052	
12.	वाहनचालक	श्री इम्तियाज अहमद		7006177062	
13.	वाहनचालक	श्री पीरज़ादा एम. अफ़ज़ल		9906939169	
14.	वाहनचालक	श्री फ़िरोज़ अहमद		9797917036	
15.	वाहनचालक	श्री एम. यासीन शेख		9018424789	

परिवहन अनुभाग

योजना एवं विकास विंग

योजना एवं विकास विंग					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	डीन पी एंड डी	डॉ. यशवंत मेहता	2904	9419056500	ymehta@nitsri.ac.in
2.	एसोसिएट डीन पी एंड डी	डॉ. फ़याज़ अहमद सोफी	2236	9797205130	sofifayaz@nitsri.ac.in
3.	कार्यकारी अभियंता ( जानपद )	एर. सैयद मोहसिन शब्बीर	2138	9797130405	xen_pd@nitsri.ac.in
4.	कनिष्ठ अभियंता ( जानपद अनुबंध पर)	एर. मंज़ूर शफ़ी भट्ट	2138	9419418809	manzoor.bhatt08@gmail.com
विद्युतीय अनुरक्षण एवं मरम्मत प्रभाग					
1.	कार्यपालक अभियंता	ईआर. परवेज़ अहमद डार	3322	9419006957	er.parvezdar@nitsri.ac.in
2.	बिजली घर	श्री रईस	3323	7006818931	
3.	बिजली घर	श्री इरशाद	3323	7006814087	
4.	कनिष्ठ अभियंता (विद्युतीय)	ईआर. जुनैद उल इस्लाम	3313	7006259287	junaid@nitsri.ac.in
5.	कनिष्ठ अभियंता	ईआर. मोहसिन फारूक	3313	7780923441	
6.	दूरभाष चालक	श्री खुशीद अहमद		9906079524	
7.	भंडारपाल	श्री गुलाम नबी		9906079528	

ई.एम एवं आर  
प्रभाग

## संपदा अनुभाग

संपदा अनुभाग					
1.	संपदा अधिकारी	डॉ. दसारी कार्तिक		9966415606	dasari.karthik@nitsri.ac.in
2.	जल पम्प	श्री रियाज़ अहमद	3319	9906776471	

## अतिथि-गृह

अतिथि-गृह					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	अतिथि-गृह	डॉ. विजय कुमार	L: 2427426 F: 2420475	6005495506	guesthouse@nitsri.ac.in
2.	रसोइया	श्री कांशी राम	3550	9906413847	
3.	रसोइया	श्री एम शम्सुद्दीन खान		8899889513	
4.	सहायक रसोइया	श्री दीपक कुमार		9469548907	

## छात्रावास

छात्रावास एवं भोजनालय कार्यालय					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	डी.एस.डब्ल्यू और सी.एस.एम	प्रो. अब्दुल लिमान	2304	9419536775	aliman@nitsri.net
2.	एसोसिएट डीन, छात्र कल्याण	डॉ. तनवीर रसूल डार	3104	9419013120 7006899026	tanveer@nitsri.ac.in
छात्रावास					
1.	वार्डेन बालिका छात्रावास	डॉ जया श्रीवास्तव	3315	7006937535	jayashrivastava@nitsri.ac.in
2.	वार्डेन चिनाब छात्रावास	डॉ. प्रमोद कुमार यादव		9411407432	pramod.kumar@nitsri.ac.in
3.	वार्डेन चिनाब छात्रावास	डॉ माजिद हुसैन		9998547248	majid.h@nitsri.ac.in
4.	वार्डेन इंडस छात्रावास	डॉ. सलीम ए. वसीम		9758461370	shakeelahmad@nitsri.ac.in
5.	वार्डेन इंडस छात्रावास	डॉ. वल्लीबोइना वेंकटेश्वरलु		8500018400	venki@nitsri.ac.in
6.	वार्डेन झेलम छात्रावास	डॉ. जानिबुल बशीर	3738	8825099229	janibbashir@nitsri.ac.in
7.	वार्डेन झेलम छात्रावास	डॉ. एम्. मोहसिन खान		6265750295	mohsinkhan@nitsri.ac.in
8.	वार्डेन पीजी और झेलम एक्सटेंशन छात्रावास	डॉ. उज्वल सुरेश आर. वारभे	2306	8087794291	ujwalwarbhe@nitsri.ac.in
9.	वार्डेन तवी & सी-ब्लाक छात्रावास	डॉ. रवि कुमार		9419211688	ravikumar@nitsri.ac.in
10.	वार्डेन तवी & सी-ब्लाक छात्रावास	डॉ. सलीम यूसुफ		7006151904	saleemyousuf@nitsri.ac.in
11.	वार्डेन मानसबल, मानसर (प्री-फैब) छात्रावास	डॉ. शशिकांत कुमार		8986948677	shashikantkumar@nitsri.ac.in
12.	वार्डेन मानसबल, मानसर (प्री-फैब) छात्रावास	डॉ. विवेक		8439253267	vivek@nitsri.ac.in
13.	छात्रावास कार्यालय	श्री तबीब बशीर	3311		managerhostel1@gmail.com
भोजनालय					
1.	स्टाफ सलाहकार भोजनालय	डॉ. जनानी एल.		9446915902	janani@nitsri.ac.in
2.	वार्डेन बालिका भोजनालय	डॉ जया श्रीवास्तव	3315	7006937535	jayashrivastava@nitsri.ac.in

**भोजनालय**

3.	वार्डेन चिनाब भोजनालय	डॉ. प्रमोद कुमार यादव		9411407432	pramod.kumar@nitsri.ac.in
4.	वार्डेन चिनाब भोजनालय	डॉ. माजिद हुसैन		9998547248	majid.h@nitsri.ac.in
5.	वार्डेन इंडस भोजनालय	डॉ. सलीम ए. वसीम		9758461370	shakeelahmad@nitsri.ac.in
6.	वार्डेन इंडस भोजनालय	डॉ. वल्लीबोइना वेंकटेश्वरलु		8500018400	venki@nitsri.ac.in
7.	वार्डेन झेलम भोजनालय	डॉ. जानिबुल बशीर	3738	8825099229	janibbashir@nitsri.ac.in
8.	वार्डेन झेलम भोजनालय	डॉ. एम्. मोहसिन खान		6265750295	mohsinkhan@nitsri.ac.in
9.	वार्डेन पीजी और झेलम एक्सटेंशन भोजनालय	डॉ. उज्वल सुरेश आर. वारभे	2306	8087794291	ujwalwarbhe@nitsri.ac.in
10.	वार्डेन तवी और सी ब्लाक भोजनालय	डॉ. रवि कुमार		9419211688	ravikumar@nitsri.ac.in
11.	वार्डेन तवी और सी ब्लाक भोजनालय	डॉ. सलीम यूसुफ		7006151904	saleemyousuf@nitsri.ac.in
12.	वार्डेन मानसबल, मानसर (प्री-फैब) भोजनालय	डॉ. शशिकांत कुमार		8986948677	shashikantkumar@nitsri.ac.in
13.	वार्डेन मानसबल, मानसर (प्री-फैब) भोजनालय	डॉ. विवेक		8439253267	vivek@nitsri.ac.in
14.	भोजनालय प्रबंधक	श्री फ़ैयाज़ अहमद भट्ट	3308	9596075847	
15.	देखभालकर्ता ( भोजनालय )	श्री शाज़ान राजा	3316	7889868648	

**जम्मू एवं कश्मीर बैंक**

जम्मू एवं कश्मीर बैंक (कैंपस शाखा कार्यालय)					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक शाखा	शाखा प्रबंधक	2125/ 2425770	9906676164	recsgr@jkbmail.com

**चिकित्सा  
इकाई +**

चिकित्सा इकाई					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	चिकित्सा अधिकारी	डॉ. गौहर नबी तांत्रे	3320	6005621154	doctor@nitsri.ac.in
2.	दंत चिकित्सक	डॉ. उनैब रियाज़		9596666611	
3.	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	डॉ. तसद्दुक नाज़की		9906523113	
4.	वरिष्ठ तकनीशियन	श्री सैयद मुमताज शाह	3309	9906046953	
5.	फार्मसिस्ट	श्री मोहम्मद अबरार खान		7889671076	
6.	मनोचिकित्सक परामर्शदाता	श्री फ़िरोज़ मल्ला		9596195546	
7.	स्टाफ नर्स	श्रीमती जिन्सी पॉल		9797910720	
8.	एक्स - रे तकनीशियन	श्री इरफ़ान रशीद		7006428525	
9.	लैब तकनीशियन	श्री निसार अहमद		6005626220	
10.	फार्मसिस्ट	श्री शाह ख़ालिद		9596596880	
11.	फार्मसिस्ट	श्री रउफ़ अहमद		6006076371	
12.	अम्बुलेंस चालक	श्री शब्बीर अहमद	9622827668	9622827668	

13.	अम्बुलेंस चालक	श्री जावेद अहमद		9622850362	
14.	अम्बुलेंस चालक	श्री फारूक अहमद		6006051310	
15.	अम्बुलेंस चालक	श्री फिरोज अहमद भट्ट		6006415694	

सुरक्षा कार्यालय					
क्र.संख्या:	कार्यालय/पद	नाम	एक्सटेंशन/फ़ोन	मोबाइल	ईमेल
1.	संकाय प्रभारी स्वच्छता	डॉ. अब्दुल्लाह अहमद		8439253267	abdullah.ahmad@nitsri.ac.in
2.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	श्री मुश्ताक अहमद भट्ट	3401	9419531610 8494063034	mushtaq.bhat@nitsri.ac.in



एक कदम स्वच्छता की ओर

[www.nitsri.ac.in](http://www.nitsri.ac.in)

© 2024

---